



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्राहायण 16, 1934

No. 2356]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2856(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2752(अ), तारीख 8 दिसम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 148.000 कि.मी. से 171.200 कि.मी. (कन्नूर सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 2 जनवरी, 2012, को “मातृभूमि” और “मलयाला मनोरमा” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 148/000 कि.मी. से 171/200 कि. मी. के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम और देशम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				पुर्ववर्ती उप मण्डल संख्या	उपवर्ती उप मण्डल संख्या				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	कन्नूर	कन्नूर	(1) चिरक्कल देशम : पुडाथी	136/1 भाग	136/5	निजी	पार्टेलि नम और पार्टेलि बाग	2.9793	इ. के. बालन नायर एवं बालचन्द्रण के वी., वसंतम, एन.आर. सोमेश्वरी मंदिर, पुजाति, पी.ओ. चिराक्कल, पी.टी जमीला, पी.टी हाउस, पुजाथि सी. के. बालन नायर, पी.पी. अजीज़ हाजी, महमूद एम. कूलोथ वालाप बालाकृष्णन, टी. के. मुसतफा, टी. के. हाउस, आलीन कीजिल थक्कम, अलिनकिजिल हाउस, पी. ओ. चिराक्कल, नबीसा के, कनियाराक्कल, पी. ओ. चिराक्कल, फातिमा पी. पुन्नाक्कल हाउस, के खालिद, कोट्टाकुन्नु, अबूबैकर मुकानम, माविलाकुन्नुम्मल (डायड), आसमा एवं अन्य कन्नादिपाराम्बा, एम. पी. सरीना, मुकानन हाउस पुजाथि
				144/5भाग	144/16	निजी	नम	4.5002	कनियाराक्कल अब्दुल्ला, अबूबैकर, पी. पी. हाउस, एन आर. बालन कांडा, मुक्किल पीडिका, पुथियाथेरु, चिराक्कल, पी. के. राजन, कोथाएलि हाउस, वालापथनम, मुकानन मुनीर, कोटाएलि चन्द्रण एवं अन्य पुजाथि, इ. एन. रामावथि, इलाबनन नालन कांडी, रामालायम, चिराक्कल पी. ओ. कन्नूर, पी. एम. उब्बैथ, हाजी सडक, कल्लुर कदायु सडक, पी. ओ. नारथ
				145/2भाग	145/3	निजी	नम	0.1014	मौचेरी रामन (डायड) मौचेरी मिनाक्षी एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				146/1भाग	146/4	निजी	नम	0.8691	माधुम्मल अननयन (कक्कड़), ए. सुनिथकी (पत्नी) एवं अन्य, माधुम्मल हाउस, कोटाली (पी. ओ.), येकयादत्त मुहम्मद, इस्लामसलेम, अथाजाकुन्नु, कस्तुकेटुविरा, पी. ओ. कोटाली, पुलिकरण मोहदीन, पुलिकरण हाउस, पुथियेदत्त, मुधुम्मल कुन्हाम्बु, बाली हाउस, थुलिचेरी, कक्कड़ पी. ओ.
				172/1भाग	172/10	निजी	बाग	0.0812	बाधाक्का मुहम्मद कुन्ही, कसीम, अथाजाकुन्नु, पी. ओ. कोटाली पुष्पाराज ए. अराम्मान, एन एस निवास, राजीवन के, अन्नु निवास, मायामूनाथ एम. के. माविलाकांडी कुन्हीमिन्नु, माविलाकांडी, कसीम एम. के., माविलाकांडी
				172/5भाग	172/13	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.0081	बाथा मोहद्दीन हाजी
				172/4भाग	172/12	निजी	बाग	0.3438	वायत कनियन गफूर, गफूर, ए. वालसन, वी. सी. अब्दुल्ला, सुरुम्मा वी. के., बाधाक्का कूलोथ, पुलिकरण मोहद्दीन, वी. के. साहेबा, बाधाक्का कूलोथ, बाधाक्का मोहद्दीन हाजी, पुथियेदत्त
				172/7भाग	172/14	निजी	बाग	0.1919	1. पाराथिल मुहम्मद कुन्ही, 2. कलियापुराइल खेरमिन्ना, दारुस खेर, नजदीक जागा मस्जिद कल्लक, अथाजाकुन्नु, पी. ओ. कोटाली पी. माजीद, कूलोथ बलाप्पु हाउस, रशिदा एम., कूलोथ इस्लाम, इस्लाम एम, पुथियापुराइल, इस्लाम, अब्दुल्ला बी. के. सफिया बलाक्का कूलोथ हाउस, थिराक्कल, रशिद वी. के., माविलाकांडी सफूरा, सफीर के, कुन्नुमकाइ, थाइकांडी असक्क, थाइकांडी हाउस, सफूरा एम. के. बाथूल नूर, असिया, मिस्बाह, अलुवालाथिल रसिया
				172/9भाग	172/16	निजी	बाग	0.0020	रशिदा, सिदिकी के. पी. काकीरीचल पुथियापुराइल, सफीरा के.पी., काकीरीचल पुथियापुराइल

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				173/5भाग	173/14	निजी	बाग	0.3000	बी. अब्दुला, बाथाका हाउस, अथाजाकुन्नु पी. ओ., कोटाली, सरीना, बाथाक्कादावाथ हाउस, पी. ओ. चिराक्कल, सुलेखा, रहमनापल्लाह, सुलेखा, रिशानक, सादाभा बी. के. कादावाथ हाउस, अब्दुल हमीद के. कोवाप्राथ, असनापुराथ, पी. ओ. चिराक्कल, अब्दुला, बाथाक्का, राशिदा बी. के. बाथाका कदावाथ
				173/4भाग	173/13	निजी	बाग	0.0191	अशिया, मिस्बाह, अलवालाप्पिल रसिया
		(2) इलायादूर देशम : मुण्डयाड		1/1 भाग	1.6	निजी	बाग	0.0015	लूथूफाद, कमल एन. के. ग्राम पंचायत
				3/1 भाग	3/4	सरकारी	पोलट्टि फार्म	1.7128	रिजनल पॉलट्टि फार्म, मुदायाद, मुसन कुट्टी, जरनलिस्ट नगर, जिजो कुमार के. साइ, जरनलिस्ट नगर, मुदायाद
				16/2बी भाग	16/9	निजी	बाग	0.5175	अनिलराज, IV 557, मुहम्मद कुन्ही, 561, इब्राहिम एन. के. इरफना पी. ओ. मुदायाद मरीयाम्मा जासफ, स्टार विल्ला, मुदायाद, पदमावती के. एम. बी. हाउस, पी. ओ. मुदायाद, विशालक्ष्मण के. पी. नीलाम्बरी पी. ओ. मुदायाद, थाहीर सी. पी. नसीमबाघ
				17/5ए भाग	17/10	निजी	बाग	0.0453	पी. पी. सिवादास, सीभागया पी. ओ. मंदायाद, अनिल कुमार थिरुमंगलाथ, अनिल निवास, पी. ओ. मुदायाद
				17/6र भाग	17/13	निजी	बाग	0.1818	पाथुम्मा (डायड) साइनाबा एवं अन्य, चेलाक्कापाराम्बिल हाउस, पी. ओ. मंदायाद, असिया सी, चेलाक्कापाराम्बिल, अनिल कुमार थिरुमंगलाथ, अनिल निवास, पी. ओ. मंदायाद, आलिमा एल.सी. राहथ महल, पी. ओ. मंदायाद, मनाकुरुथाइल मुफिया, मुनफियास, पी. ओ. छोवा, मुन्नादाथ हसीम,
				17/6बी	17/14	निजी	बाग	0.0010	एल. सी. आशिमा, बाथुल सलेम
				25/1 भाग	25/18	सरकारी.	पोरमबोक	0.0324	आदुवाजी
				25/2 भाग	25/12	निजी	बाग	0.0241	कोल. पीवीडी. नामबियर, मंदिर लन हाउस, पी. ओ. मुदायाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				25/3 भाग	25/13	निजी	बाग	0.1917	कोल. पीवीडी. नामबियर, मंदिर लेन हाउस, पी. ओ. मुदायाद
				25/11 भाग	25/17	निजी	बाग	0.1686	कोल. पीवीडी. नामबियर, मंदिर लेन हाउस, पी. ओ. मुदायाद
				25/5 भाग	25/14	निजी	बाग	0.2157	पी. पी. सुधाकरण, पुथेनपुराइल, प्रीथा निवास, पी. ओ. मुदायाद, टी. आर. हेमलाथा, "हेमा" पी. ओ. मुदायाद, कोल. पीवीडी नामबियर, मंदिर लेन हाउस, पी. ओ. मुदायाद
				25/6 भाग	25/15	निजी	बाग	0.0655	ए. सरोजीनी, परानावम, पी. ओ. मुदायाद, कोल. पीवीडी. नामबियर, मंदिर लेन हाउस, पी. ओ. मुदायाद, प्रसंथन ए. के., "मानस", मुदायाद पी. ओ.
				25/10 भाग	25/16	निजी	बाग	0.0297	कोल. पीवीडी. नामबियर, मंदिर लेन हाउस, पी. ओ. मुदायाद, वी. वी. कमलेशयम्मा बालापिलेटिल, अंजलि निवास, अजिकोडे
				24/10 भाग	24/15	निजी	बाग	0.0718	वी. वी. कमलेशयम्मा बालापिलेटिल, अंजलि निवास, अजिकोडे, ककारीकल बालन, ककारीकल हाउस, पी. ओ. थिरावकल
				24/6 भाग	24/13	निजी	बाग	0.1987	बालापिलेटिल भागीरथी अध्यापक, "श्रीवलसम", पी. ओ. मुदायाद, प्रेमाजा एम. सी. पी. ओ. मुदायाद, बालापिलेटिल गोपीनाथन नायर (एडव.), श्री प्रसादम, तलप, कन्नुर
				24/8 भाग	24/8 भाग	निजी	बाग	0.0039	प्रेमाजा एम. सी. "गोपालायम", पी. ओ. मुदायाद
				24/12	24/16	निजी	बाग	0.0101	प्रेमाजा एम. सी. "गोपालायम", पी. ओ. मुदायाद
				24/9 भाग	24/14	निजी	बाग	0.0318	प्रेमाजा एम. सी. "गोपालायम", पी. ओ. मुदायाद
				29/6 भाग	29/11	निजी	बाग	0.4153	चन्द्रिका एम. सी., कट्टुमचल हाउस, पी. ओ. मुदायाद, सुनिल एम. सी., कट्टुमचल हाउस, पी. ओ. मुदायाद, एम. सी. प्रभाकरण, कट्टुमचल हाउस, पी. ओ. मुदायाद, एम. सी. श्रीधरण, कट्टुमचल हाउस, एम. सी. प्रदमनाभउ नामबियर, कट्टुमचल हाउस, पी. ओ. मुदायाद, पी. के. बालन, वीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				29/5 भाग	29/10	निजी	बाग	0.0957	पवित्रण पी. सी. वेदाही हाउस, मंते छोवा, लक्ष्मणन पी. सी. मनाथावादी, भानमाथी अध्यापक, पुवन चाठोट
				29/7 भाग	29/13	निजी	बाग	0.0255	कमला पूवछाकोटी, पी. सी. सिवादासन, पूवाचकोट हाउस, पी. ओ. मंदायाद
				29/8 भाग	29/15	निजी	बाग	0.0930	बेबी एवं मिनाक्षी, विजीला निवास, इ. टी. सावित्री, सरस, पी. ओ. कदमड, पूरुषोथमन (डायड), चन्द्रिका, पायानूर, बालाकृष्णन टी. चलील हाउस, पी. ओ. मंदायाद, भानुमती एम. चलीवालापिल हाउस, पी. ओ. मंदायाद, प्रेमन, छला
				29/9 भाग	29/16	निजी	बाग	0.1643	इ. टी. सावित्री, चन्द्रधारा, पी. ओ. छोवा, गीता के, चाठोट बालापु, इलायादूर साउथ, वीजेश, मंदायाद, राजाम्मा एम. के. भारगवी निवास, बी. के. बिजू, बी. के. शाइजू, भारगवी निवास, इ. टी. साथीवती, इदावालाथ हाउस, पी. ओ. छोवा
				30/1ए भाग	30/4	निजी	बाग	0.1923	काकोट बालाकृष्णन, वाटापाराम्बू हाउस, इलायादूर साउथ, कुनिम्मल मिनाक्षी, वाटापाराम्बिल हाउस
				30/1बी भाग	30/6	निजी	बाग	0.0269	नीलियाथ विमला मेनन, एन. विजय कुमार नामबिया, एन विमल कुमार नामबियर, गोकुल, ओप. साधु कल्याण मादापम
				54/6ए भाग	54/13	निजी	बाग	0.0224	राघवन पी. वी. (डायड) शैलजा एवं अन्य पन्नियादान वादाकेवीदू, पी ओ थाजे छोवा
				54/6बी भाग	54/14	निजी	बाग	0.0574	राघवन पी. वी. (डायड) शैलजा एवं अन्य पन्नियादान वादाकेवीदू, पी ओ थाजे छोवा, पी. वी. पूरुषोथमन, दीप्ती निवास, पी. ओ. थाजजे छोवा
				54/12 भाग	54/17	सरकारी.	पोरमबोक	0.0560	केनल (इरीगेशन विभाग)

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				54/8 भाग	54/15	निजी	बाग	0.2839	शक्तिरत्न के.के., अधिसम, नियर विद्ययापोशिनी वायनासाला, पी. ओ. मंदायाद, शेरमिना पी.पी., खंदीजास, छोवा, अशोकन माधुमल, विमथि, एन.आर विद्ययापोशिनी वायनासाला, पी. ओ. थाजे छोवा, पुथियापुराइन मैलाछि असीमि, कोलाकंडी हाउस, पी. ओ. छोवा, मुहम्मद दी.
				55/2 भाग	55/3	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.5119	पी. टी. साफिया, थोटाखिल हाउस, एन. आर मालायाला मनरोमा, यूनिकृष्णन के. वादाकेछलिल हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, भास्करन झायड प्रसातान्ना एवं अन्य, पुथुराइन, पी. ओ. थाजे छोवा, के. दिनेशन, पुत्र कुमारन, पोरनामी, पी. ओ. थाजे छोवा, रश्मि बालाभस्कर के. पुत
				56/2 भाग	56/5	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.1902	राजीवन सी. पी. चिनाकांडी पुथेनपुराइन, कुनिइल हाउस, पी. आर. नारायणी अम्मा, राजेश भवन, पी. ओ. थोटाझ, पुलाननोदान रामथ कर्तियानि अम्मा, गोकुलम, इलायादूरु पी. ओ. छोवा,
				56/3 भाग	56/6	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.1840	भारगवन अधु मास्टर (झायड), जनारदनन के, ओमाना, शशिधरण, शैलज, के. विजयान
		देशम : इलायापुर		81/3 भाग	81/14	निजी	बाग	0.0410	पोरुकांडी गांविनदन (झायड), पोरुकांडी रवी एवं अन्य, पोरुकांडी लक्ष्मी, पुथेनपाराम्बिल, कक्कुजिइय लक्ष्मी, कक्कुजिइल पवित्रन, कक्कुजी हाउस पी. ओ. मुदायाद, रमणी एम एवं अन्य, पुथेपाराम्बु, पी. ओ. मुदायाद, ज्यातिधरण पी. एम. पुथेनपाराम्बु हाउस पी. ओ. मुडा

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				81/5 भाग	81/16	निजी	बाग	0.1334	मोनाकारा लसिथा, किज्जकनोथ प्रमोद बाबू, इलायावूर साउथ, इरुमल राजन, पाराइल हाउस, इलायावूर साउथ, इरुममल पदमिनी, पाराइल हाउस, इलायावूर साउथ, मानाकारा लिला, मानाकारा हाउस, इलायावूर हाउस, इरुममल गाविनदन, पाराइल हाउस, पी. ओ मुदय
				81/7 भाग	81/17	निजी	बाग	0.2052	वादाक्केन कोविल लीला, कुन्नाथ हाउस, इलायावूर साउथ, पवित्रन, मुदायाद
				81/8 भाग	81/18	निजी	बाग	0.0426	पुथालाथ नारायण, पी. ओ. मुदायाद, लतिका पी. "कल्याण", पी. ओ अनजामपीदिका, राथनाकरण पी, पुथालाथ हाउस, इलायावूर साउथ, पी. पवित्रन, पुथालाथ हाउस, इलायावूर साउथ
				81/13 भाग	81/20	निजी	बाग	0.0069	महेन्द्रन के. कोमाथ हाउस, इलायावूर साउथ, चन्द्राथ उबा, चन्द्रोथ हाउस, पी. ओ मंदायाद
				82/5 भाग	82/12	निजी	बाग	0.0024	मणियूर अन्बू (डायड) सुनिश कुमार, वादाकेवीदु, पी ओ. थाजे छोवा
				82/4ए भाग	82/10	निजी	बाग	0.0562	मोहनन सी, चन्द्राथ हाउस, पी ओ मंदायाद चन्द्राथ कृष्णन, चन्द्राथ हाउस, पी. ओ मंदायाद
				82/9 भाग	82/15	निजी	बाग	0.1416	ध्यावी ओ.सी, इलायती हाउस, कोदायेरी, पाराल थात्तासरी, परवाथी (डायड) मनोहरन, मुदायाद, सम्बाथ सी, छलील हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, प्रकाशन
				82/6 भाग	82/13	निजी	बाग	0.1019	छिन्द्रण कांडी राघवन, पारकोटेट्टल, पी. ओ. मंदायाद
				82/4बी भाग	82/11	निजी	बाग	0.0021	चन्द्रोथ कृष्णन, पुथियाकोट्टम, इलायावूर मंदिर
				82/8 भाग	82/14	निजी	बाग	0.0021	लक्ष्मणन सी, छलील हाउस, इलायावूर साउथ
				84/2 भाग	84/11	निजी	बाग	0.0668	सी. नारायणन, चन्द्राथ हाउस, इलायावूर, पी. ओ थाजे छोवा, भास्कर (डायड) विमला, शबीना निवास, पी. ओ. मंदायाद, कुन्निरीकल रामाचन्द्रण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				84/3बी	84/13	निजी	बाग	0.0221	पुरुषोत्तम, इलाकमड
			देशम : कीरवाली	47/1 भाग	47/6	निजी	ओ डी	0.2629	राजन पिनावकु, किजुथाली, श्रीधरण (कायड), कोण्णाथ सोबाना, पत्नी विनय कृष्णन, कोण्णाथ हाउस, बीना, अलाविल, पूजाथरा, राजीवन पाली प्रियारथ, मल्लिकार्जुन निवास, पी. ओ. थाजे छोवा, केरुण्ण पाराम्नाथ श्रीनिधि, मविलककांडी हाउस, पी. ओ. थाजे सी
				47/2 भाग	47/7	निजी	ओ डी	0.2794	पी. कमला, थिला दीपम, पी. ओ. अलाविल, पी. रावथी, पोचाम्पद हाउस, चलाद कोम्बेथ कोरण (कायड) शांथा चन्द्रण, थाजे छोवा, जनाधरणन के, कायाम्नाथ हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा
				47/3 भाग	47/8	निजी	ओ डी	0.0680	पी रावथी
				46/2 भाग	46/3	निजी	ओ डी	0.0832	बालाकृष्णन इ. कस्तूरी हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, इ. संथा, कृष्णा हाउस
				48/1ए भाग	48/6	निजी	बाग	0.4863	लक्ष्मणन एम, मुला कांडी हाउस, भारथन एम, वैतन्या हाउस, किजुथाली, एन. पी. जयानन्द, पदमिनी हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, धनतजियन के, करीम्पुरा हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, भानुमति के, थिलान्नूर, प्रकाशन के, चकाक्कल, शाहुल हमीद, शेनाज, के. के.
				49/7 भाग	49/10	निजी	बाग	0.1519	वालसलन बी, वसंती विला पी. ओ. थाजे छोवा, पी. रंजीनी, केलाश भवन, कीजुथाली, सुगुनन पी. "ऐश्वर्या", साधिसन एम, "अंजलि", कीजुथाली, एम. इ. प्रसाद, सलोमी प्रसाद, प्रसादम, थाजे छोवा
				49/5	49/8	निजी	बाग	0.0605	प्रभाकरण एन, "प्रसीकनसम"
				49/6 भाग	49/9	निजी	बाग	0.1804	के. पी. सुरेश बाबू, कर्मेड निवास, पी. ओ. थाजे छोवा, जय लक्ष्मी पी. पुथियांडी हाउस, कीजुथाली, फासिस इब्राहम, मुथियांडी हाउस, कीजुथाली, गंगाधरण एम. बी. अतुल्य हाउस, किजुथाली, पञ्चम सड़क, नागेश, आरककन हाउस
				53/1 भाग	53/22	निजी	बाग	0.162*	सुशीला मुकुन्दन, बोम्बे, प्रभाकरण कूलोथ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				53/2 भाग	53/24	निजी	बाग	0.3747	वेलायूधन (डायड) रेमा वेलायूधन, सुशमा, सी. श्यामला, धटानकांडी हाउस, कीजुथाली, प्रमोसुदन, प्रेम निवास, पोपुलरा वेहिकल्स, बीना एम. एम. मधुमल माधान हाउस पी ओ थाजे छोवा
				53/6 भाग	53/27	निजी	बाग	0.1098	टी. सहादेवन, शिल्पा निवास, वी. के. विनीश कुमार, चेताना, बालन थाटेन, कादाधिरा
				53/5 भाग	53/26	निजी	बाग	0.0538	पी. सी. रविन्द्रना, पांडानधिरा विटिल, इलाययूर, कीजुथाली,
				53/9 भाग	53/28	निजी	बाग	0.0109	मणिकोथ लक्ष्मनन एवं इन्द्रिना, मणिकोथ हाउस, कीजुथाली, रामेशन, रारीराम कोटरक, सी. एम. विलासिनी, सानिया मिशन कम्पाउंड, पी ओ छोवा
				53/4	53/25	निजी	बाग	0.1176	आरीफ अली, काथून, कन्नूर
				53/3	53/3	निजी	बाग	0.0773	कोमल अध्यापक, मिथिला, किजुथाली, चक्करामथान पदमिनी (डायड) राजीवन पी सी एवं अन्य, पांडाधिरा हाउस, कीजुथाली
				53/18	53/18	सरकारी	पोस्टबोर्ड	0.0187	लोक निर्माण विभाग सड़क
				53/19	53/31	सरकारी	पोस्टबोर्ड	0.0040	लोक निर्माण विभाग सड़क
				53/13 भाग	53/29	सरकारी	पोस्टबोर्ड	0.0140	लोक निर्माण विभाग सड़क
				53/14 भाग	53/30	सरकारी	पोस्टबोर्ड	0.1100	लोक निर्माण विभाग सड़क
				53/17 भाग	53/32	सरकारी	पोस्टबोर्ड	0.0007	लोक निर्माण विभाग सड़क
				52/1	52/3	निजी	बाग	0.0010	प्रमिला ए. कल्याणि हाउस, कीजुथाली
				64 भाग	64/2	सरकारी	पोस्टबोर्ड	0.0928	लोकल फंड सड़क
				62/4 भाग	62/8	निजी	बाग	0.0002	पवित्रण के. सी. कलाडा हाउस
				62/5	62/9	निजी	ओ डी	0.0035	पवित्रण के. सी. कलाडा हाउस
				62/7 भाग	62/10	निजी	बाग	0.0950	प्रमिला के. सी., चलोकांडी हाउस पी ओ थाजे छोवा, ए. सी. मोहनन, निर्मला भवन पवित्रण के. सी., पवित्रण, ए. सी. रविन्द्रण श्रीनिलायम पी. ओ. थाजे छोवा, नंदानन इ. नंदानम
				63 भाग	63/2	सरकारी	पोस्टबोर्ड	0.2726	लोकल फंड सड़क
			(3) वेलोर देशम : तिलचन्नूर	5/1भाग	5/5	निजी	नम	0.1030	वी.वी. कनाकलक्ष्मी, माधन राघवन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				5/2भाग	5/7	निजी	नम	0.2344	मेलोस्टेटल नथदी अम्मा, वालियावालापिल श्रीधरण नायर, वालियावालापिल कृष्णन, सुरेन्द्रण वी. वी.
				5/3भाग	5/9	निजी	नम	0.1498	वी. कुन्ही अम्मा, पी. कुन्हीकानन नायर एवं अन्य पाराम्मल, पी. ओ. छोवा
				12/1भाग	12/8	थोडु	यु ए	0.0032	पंचायत भूमि
				12/2भाग	12/5	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.1166	वालियावालापिल गोविन्दन नायर, पी. कुन्हिकान मास्टर, पाराम्मल, पी. ओ. थाजे छोवा, वी. गोविन्दन नायर (डायड), अशोकन वी. वी. एवं अन्य अभिलाश निवास, वालियावालापिल, पी. ओ. छोवा
				12/3भाग	12/7	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.4357	चान्नामुण्डाचालिल कृष्णन, लक्ष्मणन, भास्करण, चेरुवाथानकांडी कल्याणि, वालियावालापिल गोविन्दन नायर चन्द्रन के. वी. (डायड) राठी के. वी. एवं अन्य कुदापुराथ थाजे, पी. ओ. थाजे छोवा कुन्हिरामन (डायड) कालमुन्न, वी. गोविन्दन नायर डायड, अशोकन वी. वी. एवं अन्य, अभिलाश निवास, वालियावालापिल, पी. ओ. छोवा
				11/2भाग	11/4	निजी	नम	0.0417	पालीकांडी थदाकनकांडी पवित्रण, वायालिल हाउस, कनोथुमल, लक्ष्मी थिक्कनुर
				17/5	17/5	निजी	बाग	0.0091	प्रकाशन कृ. के
				13/1भाग	13/8	थोडु	यु ए	0.0405	पंचायत भूमि
				13/2भाग	13/5	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.1508	कुन्नाप्राथ जयाराजन, मदन हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, गोपालन, नयाना वीडु, केलोथ जानकी, वाजाइल हाउस, पी. ओ. इचूर, शशिधरण के, सीभाग्य, पी. ओ. थाजे छोवा, सक्काकृष्णन के, सुप्रभात, पी. ओ. थाजे छोवा
				13/3भाग	13/6	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.0178	पाराम्मल कुन्हिकानन, वालियावालापिल गोविन्दन नायर डायड अशोकन मास्टर, पी. कुन्हिकानन मास्टर, पाराम्मल, पी. ओ. थाजे छोवा, वी. गोविन्दन नायर डायड, अशोकन वी. वी. एवं अन्य, अभिलाश निवास, वालियावालापिल, पी. ओ. छोवा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				13/4ए भाग	13/7	निजी	नम	0.0077	वालियावालासि सुयामिनी डायड पाराममत कुम्हिकानन नायर
				69भाग	69/2	रास्ता	यु ए	0.0342	पंचायत भूमि
				66/4	66/8	सरकारी.	पोरमबोक	0.0084	केरला जल अधिकार
				66/1ए1भाग	66/6	निजी	पार्टिस नम और पार्टिस बाग	1.1172	मुल्लाकांडी अशोकन, पुथान वीरु पी. ओ. थाजे छोवा, सजिथा एम. मुल्लाकांडी हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा पुथेनवाटिटल कुमारन डायड पुथुविटिटल चन्द्री एवं अन्य, पी. ओ. थाजे छोवा सुभा मुल्लाकांडी, मुल्लाकांडी हाउस, इदाकामवितिल कमलक्ष्मी अम्मा, इलावितिल, पी. ओ. थाजे छोवा, वी. सार्थि, ग्गविन्दन निवास, पी. ओ. मोवाचेरी, वी. सिंधु, गोविन्दा निवास, पी. ओ. मावाचेरी, ए जोराजन, ग्गविन्दा निवास, पी. ओ. मावाचेरी, मनोज कुमार टी सी, कार्तिका, पी. ओ. थाजे छोवा, के. के. पंकजाक्की, कपादन कनिल हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, गादिनी, पुथुनवेटिटल, कदाचिरा पी. ओ. थोले छोवा, गादिनी पुथेनवेटिटल, कदाचिरा पी. ओ. पुथियापुरिल सकीना, करीम्बन वासु, अटटाडप्पा, एम. सी. जानकी अम्मी एवं
				66/1सीभाग	66/7	निजी	नम	0.2472	पादीन्नारेकांडी सुनिल एवं अन्य, कादावाथपुरिल चन्द्रगन, सविता, मुडन साथि देवी एवं अन्य, अलाकाट शशिघरण, अलाकाट नलिनी एवं अन्य, अलाकाट रघु, संथा एम., हरी निवास पी. ओ. थाजे छोवा, चन्द्रिका
				63/1 विभाग	63/7	निजी	बाग	0.0174	कुटिटलापुरथ कुन्हामिना डायड के. पी. राययानाथ, सजिथा मंजिल, पी. ओ. थोजे छोवा, मंदेनकांडी सहाजा, मुल्लादोथिल हाउस, पी. ओ. कदाबूर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				63/1सीभाग	63/8	निजी	बाग	0.1589	कुन्हिपाथु के पी., अग्रवाल हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, कुटिल्लापुरथ सफिया एवं अन्य एम. मुस्तफा, इनादुल इस्लाम पाली मदासा कमिटी, पी. ओ. थाजे छोवा, के छी असमा, कुन्हाम्मा, एम. कुहाम्माद, फातीमा मंजिल, के पीत्र सफिया पी. ओ. थाजे छोवा, कुटिल्लापुरथ रहीनास
				63/2भाग	63/9	निजी	बाग	0.1725	हमीद के पी., के. पी. मुहम्मद, के. पी. सुहारा, के. पी. जमीला, के. पी. हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, के. पी. अब्दुल काधर, के. पी. हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा, के. पी. राशिदा, के. पी. हाउस, पी. ओ. थाजे 'दोवा, के. पी. असीमा अय्यर कुटिल्लापुरथ अस्मा एवं अन्य पी. ओ. थाजे छोवा, के. पी. रहीनास, अनुराघ, पी. ओ. थाजे छोवा, रसीना रफीक सनमार्ग पी. ओ. थाजे छोवा
				94/3भाग	94/5	निजी	ओ डी	0.0266	मुल्साकांडी देवाकी, मुल्साकांडीविटिल, पी. ओ. अटटादाप्पा, मुल्साकांडी भासकरण, मुल्साकांडी वीदु
				90भाग	90/3	निजी	यु डी	0.0553	1. पी. बी. हरीदर्शन, लक्ष्मी निवास, अटटादाप्पा, 2. पी. बी. कुमार पुथियापराइल हाउस, अटटादाप्पा 3. सुभा पी., श्रीकृष्ण, छोवा 4. सुघंता पी., हरीनिवास, छला, 5. सुजीत पादीनारकांडी संतास, अटटादाप्पा
				68/2ए	68/5	निजी	नम	0.4560	ललीता रामकृष्ण, रामकृष्ण, थिलानुर, एम. पी. कुन्हिकृष्ण नायर, प्रमाराजन एम. कनाकलायम, पी.ओ. थाजे छोवा, सुजाना पी. सनेश बवन, पी. ओ. छोवा, नीशिन इब्राहम, नसीमक, पी. ओ. थाजे छोवा, ए. बी. लक्ष्मीकुट्टी अम्मा
				68/2बी	68/8	सरकारी.	पोरमबोक	0.0164	केरला जल अधिकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				68/2सी	68/7	निजी	नम	0.0735	एम. वी. कुन्हिरामन, प्रमाराजन एम. कानाकलायम, पी. ओ. थाजे छोवा, ए. बी. चन्दनण साइ निवास, पी. ओ. थाजे छोवा, एम. वी. कुन्हिकामन, मुरली निवास, पी. ओ. थाजे छोवा
				68/4भाग	68/10	सरकारी	पोरमबोक	0.0048	केरल जल अधिकार
				70/8भाग	70/18	निजी	बाग	0.0040	जयालक्ष्मी अलाकट, कालालाथिल हाउस, शालीकु सडक, कन्नुर
				70/12भाग	70/19	निजी	बाग	0.0816	एम. सी. जानकी अम्मा एवं अन्य, मंदायादान चेरीयाविटिल, पी. ओ. थाजे छोवा
				71/1 भाग	71/8	निजी	बाग	0.0833	ए. जयाराजन, गोविन्दन निवास पी. ओ. मोवेचेरी कमबालिलाथ कृष्ण थंगल, कमबिलीलाम, पी. ओ. थाजे छोवा
				71/2 भाग	71/9	निजी	बाग	0.0314	वी. साथि, गोविन्दा निवास, पी. ओ. मोवेचेरी, इ. वी. रथनाकरण नामबियर, इलावेटटी, पी. ओ. थाजे छोवा
				71/4सी भाग	71/10	निजी	बाग	0.0021	जानकी सी. प्रमावली सी पोनेनकांडी हाउस, पी. ओ. थाजे छोवा
			(4) एडवकाड देशम : चालपण्डियेक्कर	8/3भाग	8/4	सरकारी	पोरमबोक	0.0080	लोकल फंड सडक
				19/3 भाग	19/8	सरकारी	पोरमबोक	0.0141	पी.डब्ल्यू. डी. सडक
				19/1भाग	19/5	निजी	ओ डी	0.0453	रजनी सी. के. हिल पैलेस, सुजीत बालाकृष्णन, नीलिमा निवास, रामाचन्द्रण, पाडिला हाउस, वी. वी. गोपालाकृष्णन, श्रीधरण, पी. आर. राजालक्ष्मी, जयाप्रकाश माविलाकांडी हाउस
				19/4भाग	19/6	निजी	ओ डी	0.0661	शशिधरण पी. हिल पैलेस, के. वी. पुरुषोत्थमन, कुन्डिवालाथिल, के. वी. नारायणन, के. वी. राजन
				19/2भाग	19/7	सरकारी	पोरमबोक	0.0530	रेलवे पोरमबोक
				9 भाग	9/2	सरकारी	पोरमबोक	0.0200	लोकल फंड सडक
				15 भाग	15/1	सरकारी	पोरमबोक	0.2838	लोकल फंड सडक
				14 भाग	14/2	सरकारी	पोरमबोक	0.5500	रेलवे पोरमबोक
				16 भाग	16/2	सरकारी	पोरमबोक	0.2326	लोकल फंड सडक
				13 भाग	13/2	सरकारी	पोरमबोक	0.0065	रेलवे पोरमबोक
				28	28/2	सरकारी	पोरमबोक	0.4731	लोकल फंड सडक
				29	29/2	सरकारी	पोरमबोक	0.3155	लोकल फंड सडक

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				30/12	30/12	सरकारी.	पोरमबोक	0.0714	लोक निर्माण विभाग सड़क (बाईपास)
				30/13	30/13	सरकारी.	पोरमबोक	0.0664	लोक निर्माण विभाग सड़क (बाईपास)
				30/14	30/14	सरकारी.	पोरमबोक	0.0425	लोक निर्माण विभाग सड़क (बाईपास)
				30/15	30/15	सरकारी.	पोरमबोक	0.1017	लोक निर्माण विभाग सड़क (बाईपास)
				30/10	30/10	सरकारी.	पोरमबोक	0.0324	लोक निर्माण विभाग सड़क (बाईपास)
				30/16	30/16	सरकारी.	पोरमबोक	0.0203	लोक निर्माण विभाग सड़क (बाईपास)
				30/17	30/17	सरकारी.	पोरमबोक	0.0897	लोक निर्माण विभाग सड़क (बाईपास)
				30/9भाग	30/22	निजी	बाग	0.0891	वैल्लयुधन पी. थट्टानवालापिल, नलिनी के. सी.
				30/11	30/11	निजी	बाग	0.0074	सी. बानाजा
				30/6भाग	30/20	निजी	बाग	0.0364	पी. टी. साहुल हमीद, होम्स 4 यू. एस. फर्नीचर, राजीवन बालुखा हाउस
				30/5	30/5	निजी	बाग	0.0020	कुन्मकांडीसेनियान नलिनी
				30/7भाग	30/21	निजी	बाग	0.0020	कालाथील सुधाकरण, हरीश्री
				30/4भाग	30/19	निजी	बाग	0.0471	हरीदास सी. एच. एवं अन्य, कन्नका विला, थायम्पल सति एवं अन्य
				30/3भाग	30/18	निजी	बाग	0.0184	सेकेटी छला सर्विस को. ओप. बैंक
				61/1	61/1	सरकारी.	पोरमबोक	0.0426	सड़क पोरमबोक
				61/3	61/3	सरकारी.	पोरमबोक	0.0063	लोक निर्माण विभाग सड़क
				61/4	61/5	सरकारी.	पोरमबोक	0.0645	सड़क पोरमबोक
			देशम : मालपण्डारकण्डी	6/3भाग	6/14	निजी	बाग	0.0624	करीकदान बालाकृष्ण, वाटटावापिल हाउस, सावि एम. के. एवं 7 अन्य, छलिल हाउस, बलान के. भद्रा पूकंडी, छलिल हाउस
				6/5भाग	6/15	निजी	बाग	0.0891	ई. बालाकृष्ण रंजीत छलिल विटिटल, नारायण सी. छलिल हाउस, मधवी सी. छलिल हाउस, विनीत एम. सोपाजनिम, सेडिनी के

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6/6भाग	6/16	निजी	बाग	0.0484 श्रीजीत कुमार, स्नेहलता के. पी., वी.वी. सुकुमारन, सी. शोभना, के. पी. प्रीजीत कुमार श्री भवन, के. पी. श्रीमति, प्रसान्ता के. पी. थातन हाउस, वाजाइल वाजाकाडी सुकुमारन, वानादेवालिपिल हाउस, गीता सुरेन्द्रण, वी. वी. वानादेवालिपिल हाउस, वी.वी., दीपा, वी. वी. राजेन्द्रण
				6/7	6/17	निजी	ओ डी	0.0061 कोनदाथ कानन नामबियर
				6/8भाग	6/18	निजी	बाग	0.0094 कोनदाथ कानन नामबियर
				6/9भाग	6/19	निजी	बाग	0.0113 इ. पी. भारतन, पी. जनास्वन
				7/1भाग	7/21	निजी	बाग	0.0004 शिलाजा, छतोथ हाउस
				7/4भाग	7/22	निजी	बाग	0.0040 ओथायोथ सविन्द्रण, पी. वी. गणेश कुमार
				7/5भाग	7/23	निजी	बाग	0.0050 राघवन वादाकेविलिपिल
				21/6भाग	21/24	निजी	नम	0.0031 छला देवास्वाम
				21/5भाग	21/28	सरकारी	पोरमबोक	0.0020 लोक निर्माण विभाग सडक
				21/1भाग	21/18	निजी	नम	0.0010 शिघरण पी. पी. स्वीट होम, पदमिनी के. वाजाइल वीदु, पुष्पावली पी. थालिलाकाडी,
				21/2भाग	21/19	निजी	नम	0.2400 टी. वी. सुरेश बाबू, सजीवन सी. शंकरन नामबियर के, मनाप्राथ कल्याणि अम्मा, पादुविलान चन्द्राथ उन्नीकुण्डन प्रमाद, पुथियारास्वाथ देवी, वाजाइल करीयादन ओम्मा अम्मा, टी. वी. सुरेश
				21/14भाग	21/30	सरकारी	पोरमबोक	0.2000 लोक निर्माण विभाग सडक
				21/13भाग	21/29	सरकारी	पोरमबोक	0.0095 लोक निर्माण विभाग सडक
				21/16भाग	21/27	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.0005 निर्मला परमेश्वरन
				21/3 भाग	21/22	निजी	बाग	0.0080 माधवी एवं अन्य, अरयम्बेथ विनोदन टी एवं अन्य कन्नुम्मल हाउस
				21/15भाग	21/25	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.1040 पुथियाटिल वसंती सुधामीणि, थेविलाकाथ जानकी अम्मा
				22/11	22/11	सरकारी	पोरमबोक	0.3039 लोक निर्माण विभाग सडक
				22/13	22/13	सरकारी	पोरमबोक	0.0564 लोक निर्माण विभाग सडक
				22/10	22/10	सरकारी	पोरमबोक	0.0479 लोक निर्माण विभाग सडक
				22/12भाग	22/19	निजी	नम	0.0730 कुन्हामिना एवं अन्य
				22/9भाग	22/18	निजी	नम	0.0350 उर पजाधि देवास्वाम
				22/4भाग	22/15	निजी	नम	0.0147 पदमनाभन नामबियर के, कुनिम्मल, मुकुन्दन के. वी., कुन्हिलाथ परीकांडी, साधीसन पी. राघवन निवास

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				22/6भाग	22/16	निजी	नम	0.0020	ए. वी. कथयूम्मा एवं अन्य
				22/8भाग	22/17	निजी	नम	0.0344	कंदोध करीरत थकामणि, लीला भवन
				23/10	23/10	सरकारी	पोरमबोक	0.0803	लोक निर्माण विभाग सडक
				23/8	23/8	सरकारी	पोरमबोक	0.1765	लोक निर्माण विभाग सडक
				23/9	23/9	निजी	नम	0.0079	इदाकाद देवास्वाम,
				23/3भाग	23/11	निजी	नम	0.0433	इदाकाद देवास्वाम,
				24/4भाग	24/17	निजी	नम	0.0364	जानकी ए. पी., पुथियादत्त कुन्हिराम नायर
				24/2भाग	24/15	निजी	नम	0.0130	कृष्णन के
				24/1भाग	24/14	निजी	नम	0.0251	कार्तियानि भास्करन ए. पी. मिनी निवास
				24/10	24/10	सरकारी	पोरमबोक	0.0016	लोक निर्माण विभाग सडक
				24/9भाग	24/18	निजी	नम	0.0950	उर पजाचि देवास्वाम
				24/8भाग	24/8 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.2205	लोक निर्माण विभाग सडक
				24/11भाग	24/11 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.0652	लोक निर्माण विभाग सडक
				24/13भाग	24/13 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.1120	लोक निर्माण विभाग सडक
				24/3भाग	24/16	निजी	नम	0.0100	पुथियापुराइल थेकारीयादन कृष्णन
				23/4भाग	23/12	निजी	नम	0.0130	छला देवास्वाम
				24/12भाग	24/12 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.0140	लोक निर्माण विभाग सडक
			देशम : चिरक्कुल्ले	15/1	15/1	निजी	पार्टिलि नम और पार्टिलि बाग	0.0199	घनालक्ष्मी अम्मा एवं अन्य, कलाथिलेवालापिल कुन्किष्णन नामबिया, देवी कुमारन
				15/3	15/3	निजी	पार्टिलि नम और पार्टिलि बाग	0.0237	राधा एवं अन्य, वाजाइल हाउस, माधवी ए. वादाकेवालापिल, गोपालन वादाकेवालापिल
				15/5 भाग	15/5 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.2540	लोक निर्माण विभाग सडक
				15/7 भाग	15/7 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.2700	लोक निर्माण विभाग सडक
				15/6 भाग	15/11	निजी	नम	0.0120	उर पजाचि देवास्वाम
				15/10	15/10	सरकारी	पोरमबोक	0.0020	लोक निर्माण विभाग सडक
				15/4 भाग	15/13	सरकारी	यु ए	0.0004	थोडु
				15/9	15/12	निजी	नम	0.0049	पाराइल कुन्हिरामन
				16/5 भाग	16/5 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.3120	लोक निर्माण विभाग सडक
				16/7	16/7	सरकारी	पोरमबोक	0.0142	लोक निर्माण विभाग सडक
				16/2	16/2	निजी	बाग	0.0101	लक्ष्मी अम्मा पी. एम.
				16/6	16/6	सरकारी	पोरमबोक	0.0130	लोक निर्माण विभाग सडक
				16/3 भाग	16/11	सरकारी	यु ए	0.0575	थोडु
				16/8 भाग	16/8 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.0240	लोक निर्माण विभाग सडक
				16/1 भाग	16/10	निजी	नम	0.2280	आनन्दन के. के. वी. प्रदीप कुमार, के. के. सरोजीनी
				16/4	16/4	सरकारी	पोरमबोक	0.0287	लोक निर्माण विभाग सडक
			देशम : एडक्काड	7/8	7/8	सरकारी	पोरमबोक	0.0230	लोक निर्माण विभाग सडक
				7/5	7/5	सरकारी	पोरमबोक	0.0670	लोक निर्माण विभाग सडक
				7/9	7/9	सरकारी	पोरमबोक	0.0135	लोक निर्माण विभाग सडक
				7/6भाग	7/6 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.2400	लोक निर्माण विभाग सडक

11/11/17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				7/3भाग	7/11	निजी	बाग	0.0269	प्रमाराजन टी, प्रणावम
				7/4एभाग	7/12	निजी	बाग	0.0896	गणेश कुमार, गोकुलम
				7/1भाग	7/1 भाग	निजी	बाग	0.0030	कुमारण वी, किजाकेछलिल
				7/4बीभाग	7/13	निजी	नम	0.0405	एम. पदमनाभन, सुप्रणिका, अदूर, एम. वी. कुन्हिरामन नामबियर, मिथाले विटिटल सिजी श्यामिल
				7/7	7/7	निजी	नम	0.0067	एम. पदमनाभन नामबियर
				7/10भाग	7/10 भाग	सरकारी.	पोरमबोक	0.0040	लोक निर्माण विभाग सडक
				18/4भाग	18/14	सरकारी.	पोरमबोक.	0.9460	लोक निर्माण विभाग सडक
				18/2	18/10	निजी	नम	0.0478	सी. टी. नारायणन, मलाइ राधाकृष्णन, पदीकुथाजे नारायणी
				18/1भाग	18/9	निजी	नम	0.1228	चेरुवन थाइल नाराणन एवं अन्य कुंदाथिल हापउस, इदाकाद
				18/7भाग	18/7	सरकारी.	पोरमबोक	0.0080	लोक निर्माण विभाग सडक
				18/5भाग	18/12	निजी	नम	0.0159	के. लीलावती एवं अन्य
				18/3भाग	18/11	निजी	बाग	0.0040	विद्याधरण जी, कमलायम
				18/6भाग	18/13	निजी	बाग	0.1460	के. सी. पारवती, कालीकोटश्रीजा, रहीयानाथ मंजूर
				26/1भाग	26/14	निजी	बाग	0.0040	प्रबोधक, के. एस. एफ. इ. कन्नुर
				26/2भाग	26/15	निजी	बाग	0.0420	चेरुवारी सता कुमारी एवं अन्य, के. सी. गौरी अम्मा एवं 7 अन्य
				26/6भाग	26/16	निजी	बाग	0.0040	कोरोथ रमन, मद्रास, के. सी. गौरी अम्मा, कोरोथ एवं 7 अन्य कोरोथ रामन, मद्रास
				26/7भाग	26/17	निजी	बाग	0.0202	पी.वी. गौरी, पी. निशा निवास
				26/12भाग	26/19	निजी	बाग	0.1310	साथि, सिया निवास, थंगोली मदाथिल सुरेन्द्रण, टी. एम. शोभना, टी. एम. निर्मला, टी. एम. सुशीला
				26/11भाग	26/18	निजी	बाग	0.1170	वसती वासुदेवन, वेगलाट, टी. एम. सुरेन्द्रण
				25/5भाग	25/9	सरकारी.	पोरमबोक	0.0208	लोक निर्माण विभाग सडक
				25/2भाग	25/8	निजी	बाग	0.3942	थाइकाइल साथि, पी. वी. गौरी , पी. निशा, निशा निवास
				30/1भाग	30/17	निजी	बाग	0.0020	अरुण कुमार पी, रामा टी, पाचेथ
				30/2	30/18	निजी	बाग	0.0020	आर. रामाचन्द्रण, कुप्पादूथिल हाउस
				30/3	30/19	निजी	बाग	0.0120	ए. के. लीला, मोटाम्मल हाउस, विनोदधन पी
				30/4	30/20	निजी	बाग	0.0510	हरीदास सी. एच.
				45/4भाग	45/8	निजी	नम	0.4800	प्रसाथन, प्रार्थना, उपाध्यक्ष, इदाकाद श्री महाविष्णु मंदिर, के राजेन्द्रण बाबू, कोलाथाटिटल हाउस

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				44/1भाग	44/3	निजी	बाग	0.4770	के. के. नाज़र, समीर, इज्जतुल पुथेनपुराइल अजीता, श्रीकांतलसम, पी. गंगाधरण, श्रीलंकम
				51/2भाग	51/5	निजी	बाग	0.6040	धेरीया पुराइल लक्ष्मणन, सी. पवित्रण
				51/2भाग	51/4	निजी	बाग	0.0722	सिजाना सी. के. मिथिली
				62/2भाग	62/6	निजी	बाग	0.0080	संता कुमारी, सुप्रभिका शशिधरण के, मरीयाकांडी
				62/3भाग	62/7	निजी	नम	0.3380	गोविंदन नामबियर टी, ऐश्वर्या, शशिधरण के
				61/5बीभाग	61/9	निजी	बाग	0.0133	कुन्दि कृष्णन नामबियर पी. टी. कृष्णालायम, कृष्णन सी, राम निवास, राधिका पी. टी., राधिका, राधिका भवन
				61/1भाग	61/8	निजी	बाग	0.1164	पी. टी. कुन्दि कृष्णन नामबियर
				60भाग	60/2	सरकारी	पोरमबोक	0.0240	लोकल फंड सड़क
				59भाग	59 भाग	सरकारी	पोरमबोक	0.0410	लोकल फंड सड़क
				64/1बी	64/13	निजी	बाग	0.0060	फारीशा पी., जुबैदा मंजिल
				64/2बी1भाग	64/14	निजी	बाग	0.0040	के. वी. माइदु हाजी
			(5)मुडुपीलंगाड	32/1बी भाग	32/16	निजी	बाग	0.0669	के. एन जोशिला श्रीवलसम
			देशम : मुडुपीलंगाड	32/8बी भाग	32/19	निजी	बाग	0.0607	जयाप्रकाश, जयचित्रा हाउस, के एन, पुरुषोत्तमन दीप लैण्ड
				32/9बी भाग	32/9बी भाग	निजी	बाग	0.0500	पी. वी. नलिनी, कालायाकांडी
				32/10बी भाग	32/21	निजी	बाग	0.0396	अयादत्त कान्नाई एवं अन्य, अशुधन, के. एन. जयाप्रकाशन, जयचित्रा हाउस, नलिनी रवाधि, के. एन. कुमारी, के. एन. लक्ष्मण, बालागोपाला विलासम, पदानाकाथ वालापिल रवाधि, नलिनी
				32/2बी भाग	32/17	निजी	बाग	0.0040	सी. के. हरीशन, कुन्नुमथा, अलायाइवालापिल हाउस, अशुधन वेध्याय सन्नाका वायासाला, अम्माणाथ जानकी, अम्मायाथिल कुदावटिल राजन
				27/1बी भाग	27/12	निजी	बाग	0.2870	काराकांडी कुमारी, पुथिया पुराइल आइशबा, मोट्टाम्मल मिनी, एम. मिनी, निधि हाउस, एशबी के. पी., एशास, के. एल. कुमारी एवं अन्वय, बालागोपाल विलासम, उमा के. के. एवं अन्य श्रीवासइदाकाद

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				27/9बी भाग	27/14	निजी	बाग	0.0737	अयादथिल विजयान, मोहनन ए. अम्बदी, अशोकन पाथिकाल, सरेवरम, ए. प्रसाना, पुत्री रमुणी, के. के. बीना, के. के. उमा मालायूमविट्टल, पाथिकाल अशोकन
				27/10बी	27/10बी	निजी	बाग	0.0040	काइलकांडी मूसा, कुन्हम्मद, मरीयुम्मा
				25/6बी भाग	25/23	निजी	बाग	0.0207	पी. संजीवन, डिजाइन टेलरस
				25/3बी भाग	25/22	निजी	बाग	0.1210	के. वी. जब्बर, रहनाज, नूरजहाँ ए. के. मिस्वास, सिराज चेरीयन, मुन्नीर कोटर्स, अब्बैकर हाजी, सी. कुनाअहमद, रमजीनीज, काराम्मल अब्दुल्ला हाजी, आइशा, जुबैदा, वर्ध, सरीना, पुत्री धनवीर अब्बैकर
				25/1बी भाग	25/20	निजी	बाग	0.1555	मुदाइल मामूर्ति, जाहीराज, कुण्दाइल मरीयम, मुजाम्मिल मंजिल, मंदाइल रफी, मुहम्मद, अली फलाक, बायादास, प्रतिभा, प्रतिभा हाउस, पी. कमलाम पत्नी नाराणन, छताथ, प्रमीला बदरसन, अब्दुल रहीमन सी.पी.
				25/2 भाग	25/21	निजी	बाग	0.0469	राजीवन एम. मालाकुथाजा, कमला, एम. के. मरीयुम्मा, बालकीस बीवी, बालकीज महल, साइद, बीथुल मुसाम्मिल, सरीना मणिकोथ, मीथालेकांडी मरीयुम्मा कदीसु, सिनाभा, जहारा, एम नटराजन डायड एम. राजीवन एवं अन्य
				84/6 भाग	84/13	निजी	बाग	0.0040	आइशा टी. के., जुबैदा, अमीना हमजा, अभिनास, कमिटी सेक्रेटरी, शादुलिया पायली जुमा मस्जिद
				84/1ए2 भाग	84/1ए2 भाग	निजी	बाग	0.1560	थाटराकांडी कोदीइल जुबैदा, अब्दुल हरीश, इटटा रामाकृष्णन ए. असरुनिसा दारुसलम
				84/2ए2 भाग	84/12	निजी	बाग	0.0687	उत्थामन वी. वाजिइल हाउस, ए. रामाकृष्णन, नंदानम, ए. प्रासन्ना, नादल
				84/7बी	84/7बी	निजी	बाग	0.0254	प्रसादपी, अब्दुल अजीज के. के. शाइनोज पी. कुन्नुम्मल अब्दुल हाजी
				131	131	सरकारी	पोरमबोक	0.1983	सरकारी भूमि
				130/16 भाग	130/25	निजी	बाग	0.0175	सी. के. जुहारा एवं अन्य, रेमा, विमला, रथना वैली, कलात वीडु
				130/6 भाग	130/2	निजी	बाग	0.0155	एम. पी. अद्युथन, पौरनामी भारगवन पी. पी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				130/11 भाग	130/23	निजी	बाग	0.0079	हरीधरण के, कोमाथ हाउस, भास्करण पी, पाराकांडी हाउस, के. प्रासन्ना, शालिनी निवास
				130/15ए भाग	130/24	निजी	बाग	0.0111	नामथ कुन्धिकानन, कूथन विजय
				93	93	सरकारी	पोरमबोक	0.3804	सरकारी भूमि
				92/1ए	92/1ए	सरकारी	पोरमबोक	0.0526	सरकारी भूमि
				92/1बी भाग	92/15	निजी	बाग	0.0040	मुजापिलगाड ग्रामा पंचायत समकरीका निलायम
				92/3बी भाग	92/16	निजी	बाग	0.0049	मुजापिलगाड ग्राम पंचायत, के. एम. सैली, बैतल सफा, सी. के. जुहारा, जुहारा मंजिल, फालगुनन के. के. कनौली मुरीकोली मुहम्मद शैली, के. के. माधवन, पी. मोहनदास, श्यामल, टी. बाबू, थट्टानकांडीवीटिल, सदानंदन, पुत्र अचुथन, शीबा विजयान, ए. पी. विकास, पट्टाचेरी हाउस, थट्टाकांडीविटिल सदानंदन, शीबा विजयान, ए. पी. विकास, पट्टाचेरी हाउस
				92/9बी भाग	92/17	निजी	शुष्क	0.0108	पी. पी. कदीजा, पी. पी. हाउस
				91/1बी2 भाग	91/15	निजी	बाग	0.0070	के. के. सदानंदन डायड के. के. सुकुमरण, नबीसुम्मा केनरा बैंक, के. जनारधनन, पुत्र कैमन, पी. प्रकाशन, पनोली हाउस
				91/2बी भाग	91/16	निजी	ओ डी	0.0050	नवीसुम्मा डायड नफीसा मंजिल मांटीसेरी स्कूल
				129/13	129/13	सरकारी	पोरमबोक	0.0278	सरकारी भूमि
				129/3 भाग	129/17	सरकारी	पोरमबोक	0.0177	सरकारी भूमि
				129/4ए भाग	129/18	निजी	बाग	0.0090	के. लतीफ एवं अन्य, टी. सी. मुहम्मद अशरफ, हरीजन ग्रेवेयार्ड सी/ओ/ भास्करण
				129/15	129/15	सरकारी	पोरमबोक	0.0120	सरकारी भूमि
				129/12 भाग	129/21	निजी	बाग	0.0221	रविन्द्रण एवं अन्य, कर्तियानी अध्यापक, अंगावादी प्रेजीडेंट प्रभाकरण मास्टर, के. पी. गोविंदन मेमोरियल मंथीरम
				129/11ए भाग	129/19	निजी	बाग	0.0038	रसिया रामसिनास, के. के. नारायणन, श्यामा कोर्टर्स, यशोधरा के. वी. बासाकृष्णन के. पी. श्रीनिलायम
				129/11ए भाग	129/20	निजी	बाग	0.0326	रविन्द्रण एवं अन्य, लातीफ के एवं अन्य, ए. सी. हाउस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				128/16ए भाग	128/20	निजी	बाग	0.0613 मोहनन पी. श्रीहरी. पी. के. मोहनदास, रथनाभवन, जयाचन्द्रन कुन्नुम्बाथ, सुधारमा मनालाथ, नारीकुदिल नारायणन, शैलजा निवास, एम. जयन्धन, गाना, सुधर्मा गाना
				128/19	128/19	सरकारी	पोरमबोक	0.1032 सरकारी भूमि
				128/17ए भाग	128/21	निजी	बाग	0.0739 जयाश्री कृष्णिल बागाना, न्यू श्रीनिवास, श्रीलता के. वी. श्रीकेश हाउस, अचुथन मुदायलिल, पी. चन्द्रण, पानीयोदन हाउस, पुष्पाराजन, निखिला निवास
				102/1बी भाग	102/18	निजी	शुष्क	0.0150 के. पी. शाफी, के. पी. हाउस, शंकरण, भास्करण, प्रकाशन, कक्कराइल हाउस
				102/2 भाग	102/19	निजी	बाग	0.0240 अरुना, ग्राम रंजिता अनिशबाबू, ग्रामा एम. के. रमणी, रमीथा निवास, नानी के. के. नारायणन के. के., कक्कराइल हाउस
				102/13 भाग	102/22	सरकारी	पोरमबोक	0.0210 भारत संचार निगम लिमिटेड
				102/6 भाग	102/20	निजी	शुष्क	0.0040 निजर, इदाकद
				102/7 भाग	102/21	निजी	बाग	0.0050 ए. कोसु, अराथिल हाउस, पथियादी इन्दिरा, इन्दिरालयम
				102/8 भाग	102/8 भाग	निजी	शुष्क	0.0020 लता एवं अन्य
				102/9 भाग	102/9 भाग	निजी	शुष्क	0.0041 भारतन नवाथ, स्वागत हाउस
				95 भाग	95/2	सरकारी	पोरमबोक	0.1040 फूड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया
				96/1 भाग	96/12	निजी	शुष्क	0.0530 फूड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया
				96/2 भाग	96/13	निजी	बाग	0.0140 मुकुन्दन, पी. शैलजा, श्रेयास, कोकादास वलसन, वालशाप्राथ राघवन, चन्दु डायड, ए. नारायणी एवं अन्य, कोकादान हाउस
				96/8 भाग	96/14	निजी	शुष्क	0.0020 पारवती, जानकी निवास, प्रमा कुमारी, प्रीतम जनार्धरण एम. पी., स्वाधिक,
				96/9बी भाग	96/15	निजी	शुष्क	0.0074 मुस्तफा ए. के. अलनूर, वासुदेवन, कार्तिक, शाहानास, ब्लोसमक, उषा कुरुवेकाडी, रेघुत्तम पारामूकोथ, सेकेंटी, मुजाप्पिलागाद ग्राम पंचायत
				121	121	सरकारी	पोरमबोक	0.4654 सरकारी भूमि
				164/4 भाग	164/6	निजी	बाग	0.0023 पुन्नाथुनकाडी गंगाधरण, काइपाथ साथियावती, टी. सी. अशरफ, पारादिश, शरली एन. वी., श्रीराघ, अंधापल्ली सावित्री

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				236/1बी भाग	236/7	निजी	पार्टलि नम और पार्टलि बाग	0.0230	मुरुकेश के. कुनिइल हाउस, के. वी. लतिका, पाराप्पियान हाउस, बी. मुकुन्दन, एस एम. निवास, पी लतिका, पारापयाम हाउस, मुन्निलेप्राथ माइल मुहम्मद हाजी
				165/11	165/17	निजी	बाग	0.0021	करुवालकाडी करुदाकरण
				165/10ए भाग	165/15	निजी	बाग	0.0054	पुष्पाराजन, रामनिवास, राजन
					165/16	निजी	बाग	0.0077	ए. के. रजिना सिक्स आर, राजेश

[फा. स. भाराप्रो/एलए-2011/नोटिफ/3डी/केआरएल/केओजेड]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2012

S.O. 2856(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number. S.O. 2752(E), dated the 8th December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 17 on the stretch of land from Km 148.000 to Km.171.200 (Kannur Section) in District Kannur in the State of Kerala;

And whereas the substance of the above said notification has been published in "Mathrubhoomi", and "Malayala Manorama", both dated the 2nd January, 2012, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 148.000 to km 171.200 of the National Highway No. 17 in District Kannur in the State of Kerala.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the person interested
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Kannur	Kannur	(1) Chirakkal Desam: Puzhathi	136/1 Pt	136/5	Private	Partly Wet & Partly Garden	2.9793	E.K.Balan Nair & Balachandran.K.V, Vasantham, Nr.Someswari Temple, Puzhathi, P.O, Chirakkal, PT Jameela, PT House, Puzhathi, C.K.Balan Nair, P.P.Azeez Haji, Mahamoodh M, Kooloth Valap Balakirshnan, T.K.Mustafa, T K House, Alin Keezhil Thankam, Alinkeezhil House, PO Chirakkal, Nabeesa K, Kaniyarakkal, PO Chirakkal, Fathima P, Punnakkal House, K.Khalid, Kottakkunnu, Aboobacker Mukarfnam, Mavilakkunnummel (died), Asma & Others Kannadiparamba, M.P.Sareena, Mukkannan House, Puzhathi,
				144/5Pt	144/16	Private	Wet	4.5002	Kaniyarakkal Abdulla, Aboobakker, P.P.House, Nr.Balan Kada, Mukkile Peedika, Puthiyatheru, Chirakkal, P.K. Rajan, Kottiali House, Valappatnam, Mukkanan Muneer, Kottiali Chandran & Others, Puzhathi, E.N.Ramavathi, Elabanan Nallan Kandy, Ramalayam, Chirakkal P.O, Kannur, P.M.Ubaith, Haji Road, Kallur Kada Road, P.O.Narath.
				145/2Pt	145/3	Private	Wet	0.1014	Mauchereri Raman (died) Mauchereri Meenakshi & others
				146/1Pt	146/4	Private	Wet	0.8691	Mathummil Ananthan died), A.Suneethki(Wife) & others, Mathummil House, Kottali(P.O), Cheyyadath Muhammed, Darusalam, Athazhakunnu, Kallukettuchira, P.O.Kottali, Pulikaran Moideen, Pulikaran House, Puthiyedath, Mthummil Kunhambu, Thali House, Thulicheri, Kakkad(P.O)
				172/1Pt	172/10	Private	Garden	0.0812	Bathakka Muhammed Kunhi, Kasim,, Athazhakunnu, P.O.Kottali, Pushparaj A, Arambhan, N S Nivas, Rajeevan K, Anju Nivas, Mayamoonath M.K.,Mavilakandy Kunhamina, Mavilakandy, Naseema M.K., Mavilakandy
				172/5Pt	172/13	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.0081	Batha Moideen Haji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				172/4Pt	172/12	Private	Garden	0.3438	Vayat kaniyan Gafoor, Gafoor, A Valsan, V.C. Abdulla, Sarumma V.K., Bathakka Kooloth, Pulikkaran Moideen, V.K. Sahida, Bathakka Kooloth, Bathakka Moideen Haji, Puthiyatheru
				172/7Pt	172/14	Private	Garden	0.1919	1. Parayil Muhammed Kunhi, 2. Valiyapurayil Khairunnisa, 'Darul Khair, Near Juma Masjid Road, Athazhakunnu, P.O.Kottali, P.Majeed, Kooloth Valappu House, Rasheeda M., Kooloth House, Rahmath M, Puthiyapurayil, Haneefa, Abdulla, B.K. Safiya Bathakka Kooloth House, Chirakkal, Rasheed C.K., Mavilakkandy Safoora, Shameer K, Kunnumkal, Thakandy Ashraf, Thakandy House, Safoora M.K., Baithul Noor, Asiya, Misbah, Aluvallappil Rasiya
				172/9Pt	172/16	Private	Garden	0.0020	Rasheeda, Siddique K.P., Kakkirichal Puthiyapurayil, Safeera K.P., Kakkirichal Puthiyapurayil
				173/5Pt	173/14	Private	Garden	0.3000	B.Abdulla, Bathakka House, Athazhakunnu.P.O. Kottali, Sareena, Bathakkakadavath House, PO Chirakkal, Sulaika, Rahmanapallah, Sulaika, Rishanas, Sainabha V.K. Kadavath House, Abdul Hameed K, Kovvaprath, Asnapurath, PO Chirakkal, Abdulla, Bathakka, Rasheeda B.K. Bathakka Kadavath
				173/4Pt	173/13	Private	Garden	0.0191	Asiya, Misbah, Aluvallappil Rasiya
		(2) Elayavoor Desam: Mundayad		1/1 Pt	1/6	Private	Garden	0.0015	Luthufad, Kamal N.K., Grama Panchayat
				3/1 Pt	3/4	Govt	Poultry Farm	1.7128	Regional Poultry Farm, Mundayad, Musan Kutty, Journalist Nagar, Jijo Kumar K, Sai, Journalist Nagar, Mundayad
				16/28 Pt	16/9	Private	Garden	0.5175	Anilraj, IV 557, Muhammed Kunhi, IV 561, Ibrahim N.K. "Erfana", PO Mundayad, Mariyamma Joseph, Star Villa, Mundayad, Padmavathi K, M.V. House, PO Mundayad, Visalakshan K.P., "Neelambari", PO Mundayad, Thahir C.P., Naseembagh
				17/5A Pt	17/10	Private	Garden	0.0453	P.P.Sivadas, "Saubhagya" PO Mundayad, Anil Kumar Thirumangalath, Anil Nivas, PO Mundayad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				17/5A	25/13	Private	Garden	0.1818	Padhumma (died), Sainaba & Others, Chelakkaparambil House, PO Mundayad, Asiya C, Chelakkaparambil, Anil Kumar Thiruvangalath, Anil Nivas, PO Mundayad, Alamea L. C., Rahoth V. M. J., PO Mundayad, Madam Kunthayil Munfiya, Alame Nivas, PO Chevva, Munnadath Pothuval,
				17/5B	17/14	Private	Garden	0.0010	S. C. S. Rama, Baithul Salam
				25/1 Pt	25/15	Govt.	Puramboke	0.0321	Udumveezhi
				25/2 Pt	25/17	Private	Garden	0.0290	Col. PVD Nambiar, Temple Lane House, PO Mundayad
				25/3 Pt	25/18	Private	Garden	0.1717	Col. PVD Nambiar, Temple Lane House, PO Mundayad
				25/4A Pt	25/17	Private	Garden	0.1686	Col. PVD Nambiar, Temple Lane House, PO Mundayad
				25/5 Pt	25/18	Private	Garden	0.2157	Dr. Sudhakaran, Puthenpurayil, Anjali Nivas, PO Mundayad, T.R. Gomdatha, "Hema", PO Mundayad, Col. PVD Nambiar, Temple Lane House, PO Mundayad
				25/5 Pt	25/18	Private	Garden	0.0050	A. Anandji, Praniavam, PO Mundayad, Col. PVD Nambiar, Temple Lane House, PO Mundayad, E. Asanthan, K. K. "Balana", Mundayad PO
				25/10 Pt	25/19	Private	Garden	0.1112	Col. PVD Nambiar, Temple Lane House, PO Mundayad, V.V. Balashyamma Valappileveettil, K. K. Thoms, Azheekode
				24/10 Pt	24/15	Private	Garden	0.0714	S. Anandakshyamma Valappileveettil, Anjali Nivas, K. K. Thoms, K. K. Kikkal Balan, K. K. Kikkal House, PO Chirakkai
				24/6 Pt	24/10	Private	Garden	0.1987	Valappileveettil Bhageerathi Teacher, "Sreevalsam", PO Mundayad, Premaja M. C., PO Mundayad, Valappileveettil Gopinathan Nair (Retd.), Sree Prasadam, Talap, Kannur.
				24/8 Pt	24/8 Pt	Private	Garden	0.0039	Premaja M.C. "Gopalayam", PO Mundayad
				24/12	24/16	Private	Garden	0.0101	Premaja M.C. "Gopalayam", PO Mundayad
				24/13 Pt	24/14	Private	Garden	0.0213	Premaja M.C. "Gopalayam", PO Mundayad
				23/5 Pt	23/11	Private	Garden	0.4111	Chandrika M.C., Kattummachal House, PO Mundayad, Sunil M.C., Kattummachal House, PO Mundayad, A. C. Prabhakaran, Kattummachal House, PO Mundayad, M.C. Sreedharan, Kattummachal House, K. C. Padmanabhan Nambiar, Kattummachal House, PO Mundayad, P. K. Balan, Been

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				29/5 Pt	29/10	Private	Garden	0.0957	Pavithran P.C. Vaidhehi House, Mele Chovva, Lakshmanan P.C., Mananthawady, Bhanumathy Teacher, Poovan Chathoth
				29/7 Pt	29/13	Private	Garden	0.0255	Kamala Poovanchakothi, P.C.Sivadasan, Poovanchakkoth House, PO Mundayad
				29/8 Pt	29/15	Private	Garden	0.0930	Baby & Meenakshy, Vijila Nivas, E.T. Savithry, Sarass, PO Kakkad, Purushothaman (died), Chandrika, Payyannur, Balakrishnan T, Chalil House, PO Mundayad, Bhanumathi M, Chalilvalappil House, PO Mundayad, Preman, Chala
				29/9 Pt	29/16	Private	Garden	0.1643	E.T. Savithry, Chandradhara, PO Chovva, Geetha K, Chathoth Valappu, Elayavoor South, Vijesh, Mundayad, Rajamma M.K. Bhargavi Nivas, V.K.Byju, V.K. Shyju, Bhargavi Nivas, E.T.Sathiavathy, Edavalath House, PO Chova
				30/1A Pt	30/4	Private	Garden	0.1923	Kakoth Balakrishnan, Vattaparambu House, Elayavoor South, Kunimmal Meenakshi, Vattaparambil House
				30/18 Pt	30/6	Private	Garden	0.0269	Neeliyath Vimala Nienon, N Vijaya Kumar Nambiar, N.Vimal Kumar Nambiar, Gokul, Opp: Sadhu Kalyan Madapam
				54/6A Pt	54/13	Private	Garden	0.0224	Raghavan P.V. (died) Shailaja & Others, Panniadan Vadakkeveedu, PO Thazhe Chovva
				54/6B Pt	54/14	Private	Garden	0.0574	Raghavan P.V. (died) Shailaja & Others, Panniadan Vadakkeveedu, PO Thazhe Chovva, P.V. Purushothaman, Deepthi Nivas, PO Thazhe Chovva
				54/12 Pt	54/17	Govt.	Puramboke	0.0560	Canal (Irrigation Dept.)
				54/8 Pt	54/15	Private	Garden	0.2839	Sashidharan K.K., Abhiram, Near Vidhyaposhini Vayanasala, PO Mundayad, Shermina P.P., Khadeejas, Chovva, Ashokan Mathummel, Vibhoothi, Nr. Vidhyaposhini Vayanasala, PO Thazhe Chovva, Puthiyapurayil Mailanchi Aseema, Kolarkandy House, PO Chovva, Muhammed V,
				55/2 Pt	55/3	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.5119	P.T. Safiya, Thottathil House, Nr. Malayala Manorama, Unnikrishnan K, Vadakkechalil House, PO Thazhe Chovva, Bhaskaran (died) Prasanna & Others, Poothurayil, PO Thazhe Chovva, K. Dineshan, S/o Kumaran, Purnami, PO Thazhe Chovva, Rashmi Balabhaskar K, Put

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				56/2 Pt	56/5	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.1902	Rajeevan C.P., Cheenakandy Puthenpurayil, Kuniyil House, P.R. Narayani Amma, Rajesh Bhavan, PO Thottada, Pullannodan Ramath Karthianiamma, Gokulam, Elayavoor, PO Thazhe Chowva
				56/3 Pt	56/6	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.1840	Bhargavan Achuthanathan (died), Janardhanan K, Omana, Sasheendhran, Shailaja, K. Vijayan
			Desam : Elayavoor	81/3 Pt	81/14	Private	Garden	0.0410	Porukandy Govindan (died), Porukandy Ravi & Others, Porukandy Lakshmi, Puthenparambil, Kakkuzhiyil Lakshmi, Kakkuzhiyil Pavithran, Kakkuzhi House, PO Mundayad, Ramani M & Others, Puthenparambu, PO Mundayad, Jyothendran P.M., Puthenparambu House, PO Munda
				81/5 Pt	81/16	Private	Garden	0.1334	Monakkara Lasitha, Kizhakkekannoth Pramodh Babu, Elayavoor South, Erummel Rajan, Parayil House, Elayavoor South, Erummel Padmini, Parayil House, Elayavoor South, Manakkara Leela, Manakkara House, Elayavoor House, Erummel Govindan, Parayil House, PO Munday
				81/7 Pt	81/17	Private	Garden	0.2052	Vadakken Kovil Leela, Kunnath House, Elayavoor South, Pavithran, Mundayad
				81/8 Pt	81/18	Private	Garden	0.0426	Puthalath Narayanan, PO Mundayad, Lathika P, "Kalyan", PO Anjampeedika, Rathnakaran P, Puthalath House, Elayavoor South, P. Pavithran, Puthalath House, Elayavoor South,
				81/13 Pt	81/20	Private	Garden	0.0069	Mahendran K, Komath House, Elayavoor South, Chandroth Usha, Chandroth House, PO Mundayad,
				82/5 Pt	82/12	Private	Garden	0.0024	Maniyoor Ambu (died) Suneesh Kumar, Vadakkevedu, PO Thazhe Chowva
				82/4A Pt	82/10	Private	Garden	0.0562	Moharjan C, Chandroth House, PO Mundayad, Chandroth Krishnan, Chandroth House, PO Mundayad
				82/9 Pt	82/15	Private	Garden	0.1416	Madhavi OC, Elayatti House, Kodyeri, Paral, Thalassery, Parvathy (died) Manoharan, Mundayad, Sambath C, Chalil House, PO Thazhe Chowva, Prakashan,
				82/11 Pt	82/13	Private	Garden	0.1019	Chindarankandy Raghavan, Parakkettil, PO Mundayad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				82/48 Pt	82/11	Private	Garden	0.0021	Chandroth Kristynan, Puthiyakottam, Elayavoor Temple
				82/8 Pt	82/14	Private	Garden	0.0021	Lakshmanan C, Chali House, Elayavoor South
				84/2 Pt	84/11	Private	Garden	0.0668	C. Narayanan, Chandroth House, Elayavoor, PO Thazhe Chowva, Bhaskaran (died) Vimala, Sabeena Nivas, PO Mundayad, Kunnirikkal Ramachandran,
				84/38	84/13	Private	Garden	0.0221	Purushothaman, Edakkad
			Desam: Kizhuthally	47/1 Pt	47/6	Private	O.D.	0.2629	Rajan Pinnaku, Keezhuthally, Sreedharan (died), Koyambrath Shobhana, W/o Vinaya Krishnan, Koyambrath House, Beena, Alavil, Poothapara, Rajeevan Pally Piriyaarth, Madhavi Nivas, PO Thazhe Chowva, Vellunna Parambath Sreenidhi, Mavilakkandy House, PO Thazhe C
				47/2 Pt	47/7	Private	O.D.	0.2794	P. Kamala, Theertha Deepam, PO Alavil, P. Ravathy, Pochappan House, Chalad, Korambeth Koran (died) Shantha Chandran, Thazhe Chowva, Janardhanan K, Koyambrath House, PO Thazhe Chowva
				47/3 Pt	47/8	Private	O.D.	0.0680	P Revathy
				46/2 Pt	46/3	Private	O.D.	0.0932	Balakrishnan E, Kasthuri House, PO Thazhe Chowva, E Santha, Krishna House
				48/1A Pt	48/6	Private	Garden	0.4863	Lakshmanan M, Mullakandy House, Bharathan M, Chaitanya House, Keezhuthally, N.P. Jayanandan, Padmini House, PO Thazhe Chowva, Dhananjeyan K, Karimbukkara House, PO Thazhe Chowva, Bhanumathi K, Thilannur, Prakasan K, Chakkarakkal, Shahul Hameed, Senas, K.K
				49/7 Pt	49/10	Private	Garden	0.1519	Valsalan V, Vasanthi Villa PO Thazhe Chowva, P. Ranjini, Kailas Bhawan, Keezhuthally, Sugunan P, "Aiswarya", Satheesan M, "Anjali", Keezhuthally, M.E. Prasad, Salaomi Prasad, "Prasadam", Thazhe Chowva
				49/5	49/8	Private	Garden	0.0605	Prabhakaran N, "Prashyamalam",
				49/6 Pt	49/9	Private	Garden	0.1804	K.P. Suresh Babu, Sandesh Nivas, PO Thazhe Chowva, Jaya Lakshmi P, Puthiyandi House, Keezhuthally, Francis Abraham, Muthiyandi House, Keezhuthally, Gangadharan M.V. Athulya House, Keezhuthally, Panchayath Road, Nagesh, Arakkan House
				53/1 Pt	53/22	Private	Garden	0.1631	Susheela Mukundan, Bombay, Prabhakaran Kooloth

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				53/2 Pt	53/24	Private	Garden	0.3765	Velayudhan (died) Rema Velayudhan, "Sushama", C. Shyamala, Thattankandy House, Keezhuthally, Premasudhan, Prem Nivas, Populara Vethinas, Beena M.M. Madhumalai Mathan House, PO Thazhe Chovva
				53/5 Pt	53/27	Private	Garden	0.1098	T. Sanadevan, Shipa Nivas, V.K. Vinodh Kumar, Chethana, Balan Th. Jithen, Kadachira
				53/5 Pt	53/26	Private	Garden	0.0938	P.C. Raveendran, Pandanchira Veettil, Elayavoor, Keezhuthally
				53/9 Pt	53/28	Private	Garden	0.0109	Manikoth Lakshmanan & Indhira, Manikoth House, Keezhuthally, Rameshan, Rareeram Quarters, C.M. Vilasini, Sonia Mission Compound, PO Chovva
				53/9	53/25	Private	Garden	0.1175	Arif Ali, Kathun, Kannur
				53/3	53/3	Private	Garden	0.3773	Komal Teacher, Mithila, Kizhuthally, Chakkaramathan Padmini (died) Rajeevan PC & Others, Pandachira House, Keezhuthalli
				53/18	53/18	Govt.	Puramboke	0.0187	PWD Road
				53/19	53/31	Govt.	Puramboke	0.0046	PWD Road
				53/13 Pt	53/29	Govt.	Puramboke	0.0140	PWD Road
				53/14 Pt	53/30	Govt.	Puramboke	0.1100	PWD Road
				53/17 Pt	53/32	Govt.	Puramboke	0.0007	PWD Road
				52/1	52/3	Private	Garden	0.0010	Prameela A, Kallyani House, Keezhuthalli
				64 Pt	64/2	Govt.	Puramboke	0.0128	Local Fund Road
				62/4 Pt	62/8	Private	Garden	0.0002	Pavithran K.C. Kallada House
				62/5	62/9	Private	G.D.	0.0035	Pavithran K.C. Kallada House
				62/7 Pt	62/10	Private	Garden	0.0950	Prameela K.C., Chalikandy House, PO Thazhe Chovva, A.C. Mohanan, Nirmala Bhawan Pavithran K.C., Pavithram, A.C. Raveendran, Sreenilayam, PO Thazhe Chovva, Nandanam E, Nandanam,
				63 Pt	63/2	Govt.	Puramboke	0.2726	Local Fund Road
			(3) Chelora Desam: Thilanoor	5/1Pt	5/5	Private	Wet	0.1030	V.V. Kanakalakshmi, Mathan Raghavan
				5/2Pt	5/7	Private	Wet	0.2314	Meleveettil Madhavai Amma, Vallyavalappil Sreedharan Nair, Vallyavalappil Krishnan, Surendhran V.V.
				5/3Pt	5/9	Private	Wet	0.1498	V. Kunhi Amma, P. Kunhikannan Nayar & Others, Parammel, PO Chovva
				12/1Pt	12/8	Thodu	U.A.	0.0032	Panchayath Land
				12/2Pt	12/5	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.1166	Vallyavalappil Govindan Nair, P. Kunhikannan Master, Parammel, PO Thazhe Chovva, V. Govindan Nayar (died), Ashokan V.V. & Others, Abilash Nivas, Vallyavalappil, PO Chovva

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				12/3Pt	12/7	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.4357	Chambramundachali @harathan, Lakshmanan, Bhaskaran, Cheruvathankandy Kallyani, Valiyavalappil Govindan Nair, Chandran K.V. (died) Rathi K.V. & Others, Kudapurath Thazhe, PO Thazhe Chovva, Kunhiraman (died) Phalgunan, V.Govindan Nayar (died), Ashokan V.V. & Others, Abilash Nivas Valiyavalappil, PO Chovva
				11/2Pt	11/4	Private	Wet	0.0417	Pallikandy Thandayankandy Pavithran, Vayalil House, Kannothonchal, Lakshmi, Thilannur
				17/5	17/5	Private	Garden	0.0091	Prakashan M, K
				13/1Pt	13/8	Thodu	U.A.	0.0405	Panchayath Land
				13/2Pt	13/5	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.1508	Kunnaprath Jayarajan, Manden House, PO Thazhe Chovva, Gopalan, Nayana Veedu, Keloth Janaki, Vazhayil House, PO Eachur, Saseendran K, Saubhagya, PO Thazhe Chovva, Ramakrishnan K, Suprabhath, PO Thazhe Chovva,
				13/3Pt	13/6	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.0178	Parammal Kunhikannan, Valiyavalappil Govindan Nair (died) Ashokan Master, P.Kunhikannan Master, Parammel, PO Thazhe Chovva, V.Govindan Nayar (died), Ashokan V.V. & Others, Abilash Nivas, Valiyavalappil, PO Chovva
				13/4A Pt	13/7	Private	Wet	0.0077	Valiyavalappil Saudhamini (died) Parammel Kunhikannan Nair
				69Pt	69/2	Road	U.A.	0.0342	Panchayath Land
				66/4	66/8	Govt.	Puramboke	0.0084	Kerala Water Authority
				66/1A1Pt	66/6	Private	Partly Wet & Partly Garden	1.1172	Mullakandy Ashokan, Puthan Veedu, PO Thazhe Chovva, Sajitha M, Mullakandy House, PO Thazhe Chovva, Puthenveettil Kuntharan (died) Puthenveettil Chandri & Others, PO Thazhe Chovva, Suma Mullakandy, Mullakandy House, Edakkamveettil Kamalakshi Amma, Elaveettil, PO Thazhe Chovva, V.Sathi, Govinda Nivas, PO Mowancheri, V. Sindhu, Govinda Nivas, PO Mowancheri, A Jauarajan, Govinda Nivas, PO Mowancheri, Monoj Kumar TC, "Karthika, PO Thazhe Chovva, K.K. Pankajakshy, Kappadan Kuniyil House, PO Thazhe Chovva, Godini, Puthenveettil, Kadachira PO, Puthiyapuri Sakeena, Karimbam Vasu, Attadappa, M.C. Janaki Amma & Others, Mundayadan Cheriyaveettil, PO Thazhe Chovva

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				66/1CPt	66/7	Private	Wet	0.2472	Padinnarekandy Sunil & Others, Kadavathpurayil Chandran, Savitha, Mundan Sathi Devi & Others, Alakkat Sashidharan, Alakkat Nalini & Others, Alakkatt Reghu, Santha M, Hari Nivas PO Thazhe Chowva, Chandrika
				63/18Pt	63/7	Private	Garden	0.0174	Kuttialapurath Kunhamina (died) K.P. Raiyyanath, Sajitha Manzil, PO Thazhe Chowva, Mandenkandy Sahaja, Mullandothiyil House, PO Kadamboor
				63/1CPt	63/8	Private	Garden	0.1589	Kunhipathu K.P., Apparrel House, PO Thazhe Chowva, Kuttialapurath Safiya & Others, M. Musthafa, Ershadul Islam Pally Madrassa Committee, PO Thazhe Chowva, K.P.Asma, Kunhaamma, M. Kuhammed, Fathima Manzil, K.P.Safiya PO Thazhe Chowva, Kuttialapurath Rahinas
				63/2Pt	63/9	Private	Garden	0.1725	Hameed K.P., K.P.Muhammed, K.P.Suhara, K.P. Jameela, K.P.House, PO Thazhe Chowva, K.P. Abdul Kadher, K.P.House, PO Thazhe Chowva, K.P.Rasheeda, K.P.House, PO Thazhe Chowva, K.P.Aasima(died) Kuttialapurath Asma & Others PO Thazhe Chowva, K.P. Rahinas, "Anugrah", PO Thazhe Chowva, Raseena Rafeeqe, "Sanmargh" PO Thazhe Chowva
				94/3Pt	94/5	Private	O.D.	0.0266	Mullakandy Devaki, Mullakandy Vellal, P.O. Attadappa, Mullakandy Bhaskaran, Mullakandy Veedu
				90Pt	90/3	Private	U.D.	0.0553	1) P.V.Haridasan, Lakshmi Nivas, Attadappa, 2) P.V. Kumaran Puthiyapurayil House, Attadappa, 3) Suma P., Sreekrishnan, Chowva, 4) Sugatha P., Harinivas, Chala, 5) Sujith Padinnarekandy "Santhas", Attadappa
				68/2A	68/5	Private	Wet	0.4560	Lalitha Ramakrishnan, "Ramakrishna", Thilannur, M.P.Kunhikrishnan Nair, Premarajan M, Kanakalayam, PO Thazhechowva, Sujana P, Suresh Bhavan, PO Chowva, Noushina Ibrahim, Naseemas, PO Thazhe Chowva, A.V. Lakshmiikutty Amma
				68/2B	68/8	Govt.	Puromboke	0.0150	Kerala Water Authority

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				68/2C	68/7	Private	Wet	0.0735	M.V. Kunhiraman, Premarajan M, Kanakalayam, PO Thazhechowva, A.B.Chandran, Sai Nivas, PO Thazhe Chowva, M.V. Kuhlkanan, Murali Nivas, PO Thazhe Chowva
				63/4Pt	68/10	Govt.	Puramboke	0.0048	Kerala Water Authority
				70/8Pt	70/18	Private	Garden	0.0040	Jayalakshi Alakkatt, Kallaiathil House, Thalikkavu Road, Kannur.
				70/12Pt	70/19	Private	Garden	0.0816	M.C.Janaki Amma & Others, Mundayadan Cheriyaevettill, PO Thazhe Chowva
				71/1 pt	71/8	Private	Garden	0.0833	A Jayarajan, Govnda nivas PO Mowenchery Kambolillath Krishnan thangal, Kambolillam, PO Thazhe Chowva
				71/2 pt	71/9	Private	Garden	0.0314	V Sathi, Govinda Nias, PO Mowenchery , E V Rathnakaran Nambiar, elavettill, PO Thazhe Chowva
				71/4C pt	71/10	Private	Garden	0.0021	Janaki C , Premavally C Ponnenkandy house, PO Thazhe Chowva
			(4) Edakkad Desan : Chalapadinharekara	8/3Pt	8/4	Govt.	Puramboke	0.0080	Local Fund Road
				19/3 Pt	19/8	Govt.	Puramboke	0.0141	PWD Road
				19/1Pt	19/5	Private	O.D.	0.0453	Rajani C.K., Hill Palace, Sujith Balakirshnan, Neelima Nivas, ramachandran, Pandiala House, V.V. Gopalakrishnan, Sreelakshmi, Narath, Sreedharan, P.R. Rajalakshmi, Jayaprakash, Mavilakandy House
				19/4Pt	19/6	Private	O.D.	0.0661	Sasidharan P, Hill Palace, K.V. Purushothaman, Kunhivalappil, K.V. Narayanan, K.V. Rajan,
				19/2Pt	19/7	Govt.	Puramboke	0.0530	Railway Puramboke
				9 Pt	9/2	Govt.	Puramboke	0.0200	Local Fund Road
				15 Pt	15/1	Govt.	Puramboke	0.2838	Local Fund Road
				14 Pt	14/2	Govt.	Puramboke	0.5500	Railway Puramboke
				16 Pt	16/2	Govt.	Puramboke	0.2326	Local Fund Road
				13 Pt	13/2	Govt.	Puramboke	0.0065	Railway Puramboke
				28	28/2	Govt.	Puramboke	0.4731	Local Fund Road
				29	29/2	Govt.	Puramboke	0.3155	Local Fund Road
				30/12	30/12	Govt.	Puramboke	0.0714	PWD Road (Bye-Pass)
				30/13	30/13	Govt.	Puramboke	0.0664	PWD Road (Bye-Pass)
				30/14	30/14	Govt.	Puramboke	0.0425	PWD Road (Bye-Pass)
				30/15	30/15	Govt.	Puramboke	0.1017	PWD Road (Bye-Pass)
				30/10	30/10	Govt.	Puramboke	0.0324	PWD Road (Bye-Pass)
				30/16	30/16	Govt.	Puramboke	0.0203	PWD Road (Bye-Pass)
				30/17	30/17	Govt.	Puramboke	0.0897	PWD Road (Bye-Pass)
				30/9Pt	30/22	Private	Garden	0.0891	Velayudhan P., Thattantevalappil, Nalini K.C.
				30/11	30/11	Private	Garden	0.0074	C.Vanaja
				30/6Pt	30/20	Private	Garden	0.0364	P.T. Shahul Hameed, "Homes 4 US" Furniture", Rajeevan Barukha House
				30/5	30/5	Private	Garden	0.0020	Kunnumkandy Chemminiyan Nalini
				30/7Pt	30/21	Private	Garden	0.0020	Kalathil Sudhakaran, Harishree
				30/4Pt	30/19	Private	Garden	0.0471	Haridas C.H., & Others, Kanaka Villa, "happally Sashi & Others,
				30/3Pt	30/18	Private	Garden	0.0184	Secretary, Chala Service Co.Op. Bank
				61/1	61/1	Govt.	Puramboke	0.0426	Road Puramboke
				61/3	61/3	Govt.	Puramboke	0.0063	PWD Irrigation Dept.
				61/4	61/5	Govt.	Puramboke	0.0645	Road Puramboke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Desam: Chalapandrandukandi	6/3Pt	6/14	Private	Garden	0.0624	Karikkadan Balakrishnan, Vattavalappil House, Sathl N.K. & 7 Others, Chalil House, Balan K, Saradha Pookandy, Chalil House,
				6/5Pt	6/15	Private	Garden	0.0891	E. Balakrishnan, Ranjith Chalil veettil, Narayan C, Chalil House, Madhavi C, Chalil House, Vineetha M, Souparnika, Rohini K
				6/6Pt	6/16	Private	Garden	0.0484	Srejith Kumar, Snelatha K.P., V.V. Sukumaran, C. Shobana, K.P. Priji Kumar, Sree Bhawan, K.P. Sreemathi, Prasanna K.P. Thothan House, Vazhayil vazhakadi Sukumaran, Vannadevalappil House, Geetha Surendran, V.V. Vannadevalappil House, V.V. Deepa, V.V. Rajendran
				6/7	6/17	Private	OD	0.0061	Kandoth Kannan Nambiar
				6/8Pt	6/18	Private	Garden	0.0094	Kandoth Kannan Nambiar
				6/9Pt	6/19	Private	Garden	0.0113	E.P. Bharathan, P. Janardhanan
				7/1Pt	7/21	Private	Garden	0.0004	Shylaja, Chathoth House
				7/4Pt	7/22	Private	Garden	0.0040	Othayoth Raveendran, P.V. Ganesh Kumar
				7/5Pt	7/23	Private	Garden	0.0050	Raghavan Vadakkevalappil
				21/6Pt	21/24	Private	Wet	0.0031	Chala Devaswam
				21/5Pt	21/28	Govt	Puramboke	0.0020	PWD Irrigation
				21/1Pt	21/18	Private	Wet	0.0010	Sashidharan P.P., Sweet Home, Padmini K., Vazhayil Veedu, Pushpavally P., Thalilakandy
				21/2Pt	21/19	Private	Wet	0.2400	T.V. Suresh Babu., Sajeevan C, Sankaran Nambiar K, Manaprath Kalliani Amma, Paduvilan Chandroth Jnnikrishnan, Pramodh, Puthiyarambath Devi, Vazhayil Kariyadan Omma Amma, T.V. Suresh
				21/14Pt	21/30	Govt	Puramboke	0.2000	PWD Road
				21/13Pt	21/29	Govt	Puramboke	0.0095	PWD Road
				21/16Pt	21/27	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.0005	Nirmala Paremeshwaran
				21/3 Pt	21/22	Private	Garden	0.0080	Madhavi & Others, Arayembeth, Vinodan T & Others Kunnummel House
				21/15Pt	21/25	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.1040	Puthiyaveettil Vasanthi, Saudhamini, Thevilakath Janaki Amma
				22/11	22/11	Govt	Puramboke	0.3039	PWD Road
				22/13	22/13	Govt	Puramboke	0.0564	PWD Road
				22/10	22/10	Govt	Puramboke	0.0479	PWD Road
				22/12Pt	22/19	Private	Wet	0.0730	Kunhamina & Others
				22/9Pt	22/18	Private	Wet	0.0350	Ooor Pazhachi Devaswam
				22/4Pt	22/5	Private	Wet	0.0147	Padmanabhan Nambiar K, Kunimel, Mukundan K.V., Kunhillath Parikandy, Satheesan P, Raghava Nivas
				22/6Pt	22/16	Private	Wet	0.0020	A.V. Kayyumma & Others
				22/8Pt	22/17	Private	Wet	0.0344	Kandoth Karerat Thankamani, Leela Bhawan
				23/10	23/10	Govt	Puramboke	0.0803	PWD Road
				23/8	23/8	Govt	Puramboke	0.1765	PWD Road
				23/9	23/9	Private	Wet	0.0079	Edakkad Devaswam
				23/5Pt	23/11	Private	Wet	0.0013	Edakkad Devaswam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				24/4Pt	24/17	Private	Wet	0.0964	Janaki A.P., Puthiyadath Kunhiraman Nair
				24/2Pt	24/15	Private	Wet	0.0130	Krishnan K
				24/1Pt	24/14	Private	Wet	0.0251	Karthiyani Bhaskaran A.P., Mini Nivas
				24/10	24/10	Govt	Puramboke	0.0016	PWD Road
				24/2Pt	24/18	Private	Wet	0.0950	Ooor Pazhachi Devaswam
				24/2Pt	24/17 Pt	Govt	Puramboke	0.2205	PWD Road
				24/11Pt	24/11 Pt	Govt	Puramboke	0.0652	PWD Road
				24/13Pt	24/13 Pt	Govt	Puramboke	0.1120	PWD Road
				24/3Pt	24/16	Private	Wet	0.0100	Puthiyapurayil Thekkekariyadan Krishnan
				23/4Pt	23/12	Private	Wet	0.0130	Chala Devaswam
				24/12Pt	24/12 Pt	Govt	Puramboke	0.0140	PWD Road
			Desam: Chirakkuthazhe	15/1	15/1	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.0199	Dhanalakshmi Amma & Others, Kalathilevalappil Kulkirishnan Nambiar, Devi Kumaran
				15/3	15/3	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.0237	Radha & Others, Vazhayil House, Madhavi A, Vadakkevalappil, Gopalan Vadakkevalappil
				15/2 Pt	15/5 Pt	Govt.	Puramboke	0.2540	PWD Road
				15/7 Pt	15/7 Pt	Govt.	Puramboke	0.2700	PWD Road
				15/8 Pt	15/11	Private	Wet	0.0120	Uoorpazhassi Devaswam
				15/10	15/10	Govt.	Puramboke	0.0020	PWD Road
				15/4 Pt	15/13	Govt.	U.A.	0.0004	Thodu
				15/9	15/12	Private	Wet	0.0049	Parayil Kunhiraman
				16/5 Pt	16/9 Pt	Govt.	Puramboke	0.3120	PWD Road
				16/7	16/7	Govt.	Puramboke	0.0142	PWD Road
				16/2	16/2	Private	Garden	0.0101	Lakshmi Amm P.M.
				16/6	16/6	Govt.	Puramboke	0.0130	PWD Road
				16/3 Pt	16/11	Govt.	UA	0.0575	Thodu
				16/8 Pt	16/8 Pt	Govt.	Puramboke	0.0240	PWD Road
				16/1 Pt	16/20	Private	Wet	0.2280	Anandan K.K., V.Pradeep Kumar, K.K.Sarojini
				16/4	16/4	Govt.	Puramboke	0.0287	PWD Road
			Desam: Edakkad	7/8	7/8	Govt.	Puramboke	0.0230	PWD Road
				7/5	7/5	Govt.	Puramboke	0.0670	PWD Road
				7/9	7/9	Govt.	Puramboke	0.0135	PWD Road
				7/6Pt	7/6 Pt	Govt.	Puramboke	0.2400	PWD Road
				7/3Pt	7/11	Private	Garden	0.0269	Premarajan T, Pranavam
				7/4APt	7/12	Private	Garden	0.0896	Ganesh Kumar, "Gokulam"
				7/1Pt	7/1 Pt	Private	Garden	0.0030	Kumaran V, Kishakkechall
				7/48Pt	7/13	Private	Wet	0.0405	M. Padmanabhan, "Sauparnika", Adoor, M.V. Kunhiraman Nambiar, Meethale Veetil Siji, Shyamil
				7/7	7/7	Private	Wet	0.0067	M. Padmanabhan Nambiar
				7/10Pt	7/10 Pt	Govt.	Puramboke	0.0040	PWD Road
				18/4Pt	18/14	Govt.	Puramboke	0.9460	PWD Road
				18/2	18/10	Private	Wet	0.0478	C.T.Narayanan, Malai Radhakrishnan, Padikkuthazha Narayani
				18/1Pt	18/9	Private	Wet	0.1228	Cheruvan Thayyil Narayanan & others Kundathil House, Edakkad
				18/7Pt	18/7	Govt.	Puramboke	0.0080	PWD Road
				18/5Pt	18/12	Private	Wet	0.0159	K.Leelavathy & others
				18/3Pt	18/11	Private	Garden	0.0040	Vidhyadharan G, Kamalayalam
				18/6Pt	18/13	Private	Garden	0.1460	K.C. Parvathi, Kallikot Sreeja, Rahiyanath Manzoor
				26/1Pt	26/14	Private	Garden	0.0040	Manager, KSFE, Kannur
				26/2Pt	26/15	Private	Garden	0.0420	Cheruvuri Shantha Kumari & others, K.C. Gouri Amma & 7 Others
				26/6Pt	26/16	Private	Garden	0.0040	Koroth Raman, Madras, K.C. Gouri Amma, Koroth & 7 Others, Koroth Raman, Madras
				26/7Pt	26/17	Private	Garden	0.0202	P.V. Gouri, P. Nisha Nivas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				26/12Pt	26/19	Private	Garden	0.1310	Sathi, Siya Nivas, Thaingoli Madathil Surendran, T.M. Shobana, T.M.Nirmala, T.M. Susheela
				26/11Pt	26/18	Private	Garden	0.1170	Vasanthi Vasudevan, Vengalat, T.M. Surendran
				25/5Pt	25/9	Govt.	Puramboke	0.0208	PWD Road
				25/2Pt	25/8	Private	Garden	0.3942	Thaikkayil Sathi, P.V. Gouri, P. Nisha, Nisha Nivas
				30/1Pt	30/17	Private	Garden	0.0020	Arun Kumar P, Rama T, Pacheth
				30/2	30/18	Private	Garden	0.0020	R. Ramachandran, Kuppaduthil House
				30/3	30/19	Private	Garden	0.0120	A.K. Leeia, Mottammel House, Vinodhan P
				30/4	30/20	Private	Garden	0.0510	Haridas C.H.
				45/4 t	45/8	Private	Wet	0.4800	Prasanthan, Prarthana, Chairman, Edakkad Sree Mahavishnu Temple, K. Rajendrababu, Kolathattil House
				44/1Pt	44/3	Private	Garden	0.4770	K.K.Nazar, Semees, Ezhuthani Puthenpurayil Ajitha, Sreekailasam, P. Gangadharan, Sreelakham
				51/3Pt	51/5	Private	Garden	0.6040	Cheriyapurayil Lakshmanan, C. Pavithran
				51/2Pt	51/4	Private	Garden	0.0722	Sijana C.K., Mythili
				62/2Pt	62/6	Private	Garden	0.0080	Santha Kumari, "Sauparnika", Sasheendran K, Mariyankandy
				62/3Pt	62/7	Private	Wet	0.3380	Govindan Nambiar T, Aiswarya, Sasheendran K
				61/5B Pt	61/9	Private	Garden	0.0133	Kunhi Krishnan Nambiar P.T., Krishnalayam, Krishnan C, Ram Nivas, Radhika P.T., Radhika, Radhika Bhavan
				61/1Pt	61/8	Private	Garden	0.1164	P.T.Kunhikrishnan Nambiar
				60Pt	60/2	Govt.	Puramboke	0.0240	Local Fund Road
				59Pt	59 Pt	Govt.	Puramboke	0.0410	Local Fund Road
				64/1B	64/13	Private	Garden	0.0060	Farisha P., Zubaida Manzil
				64/2B1Pt	64/14	Private	Garden	0.0040	K.V. Moidu Haji
			(5) Muzhuppilangad Desam : Muzhuppilangad	32/18 Pt	32/16	Private	Garden	0.0669	K.N.Joshila "Sreevalsam"
				32/8B Pt	32/19	Private	Garden	0.0607	Jayaprakash, Jayachithra House, K.N. Purushothaman, Dream Land
				32/9B Pt	32/9B Pt	Private	Garden	0.0500	P.V.Nalini, Kalayankandy
				32/10B Pt	32/21	Private	Garden	0.0396	Ayadath Janaki & Others, Achuthan, K.N. Jayaprakashan, Jayachithra House, Nalini, Revathy, K.N. Kumari, K.N. Lathika, Lalagopala Vilasam, Padannakal, Alappil Revathy, Nalini
				32/2B Pt	32/17	Private	Garden	0.0040	C.K.Hareeshan, Kunnumatha, Alakkaivalappil House, Achuthan Vaidhyar Samraka Vayanasala, Appanath Janaki, Ambayathil Kudaveettill Rajan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				27/18 Pt	27/12	Private	Garden	0.2870	Karakandy Kumari, Puthiya Purayil Ayishabi, Mottammel Mini, M.Mini, Nidhi House, Aishabi K.P., "Aishas", K.L. Kumari & Others, Balagopala Vilasam, Uma K.K. & Others, Shreyas.Edakkad
				27/98 Pt	27/14	Private	Garden	0.0737	Ayadathil Vijayan, Mohanan A, "Ambadi", Ashokan Pathikkal, "Sarovaram", A Prasanna, D/o Rammuni, K.K.Beena, K.K. Uma, Malayumveetil, Pathikkal Ashokan
				27/108	27/108	Private	Garden	0.0040	Kayyilekandy Moosa, Kunhammed, Mariyumma
				25/68 Pt	25/23	Private	Garden	0.0207	P.Sajeevan, Design Tailors
				25/38 Pt	25/22	Private	Garden	0.1210	K.V. Zubair, Raihanaz, Noorjahan A.K. "Miswass", Siraj Cherian, Muneer Quarters, Aboobacker Haji, C. Kunnammed, Ramsineez, Karammel Abdulla Haji, Ayisha, Zubaida, "Vardh", Sareena, D/o Thanveer Aboobacker
				25/18 Pt	25/20	Private	Garden	0.1555	Mundayil Mammootty, Zahiraz, Kundayil Mariyam, Muzammil Manzil, Mundayil Rafi, Muhammed, Al Falaq, Bavadas, Prathiba, Prathiba House, P.Kamalam W/o Narayanan, Chathoth, Prameela Badasan, Abdul Rahiman C.P.
				25/2 Pt	25/21	Private	Garden	0.0469	Rajeevan M, Alakkuthazha, Kamala, M.K. Mariyumma, Balkis Beevi, Balkis Mahal, Saidh, Beethul Musammil, Sareena Manikoth, Meethalekandy Mariyumma Kadeesu, Sinabha, Zuhara, M Natarajan (died) M. Rajeevan & Others
				84/6 Pt	84/13	Private	Garden	0.0040	Ayisha T.K., Zubaida, Amina Hamza, "Aminas", Committee Secretary, Shaduliya Palli Juma Masjid
				84/1A2 Pt	84/1A2 Pt	Private	Garden	0.1560	Thattarakandy Kodyil Zubaida, Abdul Harris, Etta Ramakrishnan A, Asarunnisa, Darusalam
				84/2A2 Pt	84/12	Private	Garden	0.0687	Uthaman V, Vazhayil House, A Ramakrishnan, "Nandanam", A Prasanna, Nadal
				84/7B	84/7B	Private	Garden	0.0254	Prasad P, Abdul Aseez K.K., Shinoj P, Kunnummel Abdul Haji
				131	131	Govt	Puramboke	0.1983	Govt. Land
				130/16 Pt	130/25	Private	Garden	0.0175	C.K. Zuhara & Others, Rema, Vimala, Rathna Vally, Kallat Veedu
				130/6 Pt	130/22	Private	Garden	0.0155	M.P.Achuthan, "Purnami", Bhargavan P.P.
				130/11 Pt	130/23	Private	Garden	0.0079	Hareendran K., Komath House, Bhaskaran P. Parakandy House, K. Prasanna, Salini Nivas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				130/15A Pt	130/24	Private	Garden	0.0111	Namath Kunhikannan, Koothan Bijoy
				93	93	Govt	Puramboke	0.3804	Govt. Land
				92/1A	92/1A	Govt	Puramboke	0.0526	Govt. Land
				92/1B Pt	92/15	Private	Garden	0.0040	Muzhappilangad Grama Panchayath Samskarika Nilayam,
				92/3B Pt	92/16	Private	Garden	0.0049	Muzhappilangad Grama Panchayath, K.M. Sali, Baithul Safa, C.K. Zuhara, Zuhara Manzil, Phalgunan K.K., Kannoli Murikol, Muhammed Sali, K.K. Madhusvan, P. Mohandas, "Shyrial", T.Babu, Thatankandiveetil, Sadanandan,, S/O Achuthan, Sheeba Vijayan, A.P. Vikas, Pattatheri House, Thattankandyveetil Sadanandan, Sheeba Vijayan, A.P. Vikas, Pattatheri House
				92/9B Pt	92/17	Private	Dry	0.0108	P.P. Kadeeja, P.P. House
				91/1B2 Pt	91/15	Private	Garden	0.0070	K.K.Sadanandan (died) K.K. Sukumaran, Nabeesumma (Canara Bank) , K.Janardhanan, S/o Kelan, P. Prakashan, Panoli House
				91/2B Pt	91/16	Private	O.D	0.0050	Nabeesumma (died) Nafeesa Manzil (Montisseri School)
				129/13	129/13	Govt	Puramboke	0.0278	Govt. Land
				129/3 Pt	129/17	Govt	Puramboke	0.0177	Govt. Land
				129/4A Pt	129/18	Private	Garden	0.0090	K.Latheef & Others, T.C. Muhammed Ashraf, Harijan Graveyard, C/o Bhaskaran
				129/15	129/15	Govt	Puramboke	0.0120	Govt. Land
				129/12 Pt	129/21	Private	Garden	0.0221	Raveendran & Others, Karthiani Teacher, (Anganvadi President), Prabhakaran Master, K.P. Govindan Memorial Mandhiram
				129/11A Pt	129/19	Private	Garden	0.0038	Rasiya Ramsinas, K.K. Narayanan, Shyma Quarters, Yeshoda K.V. Balakrishnan K.P. "Srinilayam"
				129/11A Pt	129/20	Private	Garden	0.0326	Raveendran & Others, Latheef K & Others, A.C. House
				128/16A Pt	128/20	Private	Garden	0.0613	Mohanan P, Srihari, P.K. Mohandas, Rathnabhavan, Jayachandran Kunnumbrath, Sudharma Manalath, Narikundil Narayanan, Shailaja Nivas, M. Jayendran, "Gana", Sudharma "Gana"
				128/19	128/19	Govt	Puramboke	0.2038	Govt. Land
				128/17A Pt	128/21	Private	Garden	0.0739	Jayashree Kambil Vangana, New Srinivas, Srilatha K.V. Srikesh House, Achuthan Mundachalil, P.Chandran, Paniyodan House, Pushparajan, Nikhila Nivas
				102/1B Pt	102/18	Private	Dry	0.0150	K.P. Shafi, K.P. House, Shankaran, Bhaskaran, Prakasan, Kakkarayil House

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				102/2 Pt	102/19	Private	Garden	0.0240	Aruna, "Gama", Rejitha Aneeshbabu, "Gama" M.K. Ramani, Smitha Nivas, Nani K.K., Narayanan K.K., Kakkarayil House
				102/13 Pt	102/22	Govt	Puramboke	0.0210	Bharath Sanchar Nigam Ltd
				102/6 Pt	102/20	Private	Dry	0.0040	Nizar, Edakkad
				102/7 Pt	102/21	Private	Garden	0.0050	A. Kausu, Arathil House, Puthiyandi Indhira, Indhiralayam
				102/8 Pt	102/8 Pt	Private	Dry	0.0020	Latha & Others
				102/9 Pt	102/9 Pt	Private	Dry	0.0041	Bharathan Navath, Swagath House
				95 Pt	95/2	Govt	Puramboke	0.1040	Food Corporation of India
				96/1 Pt	96/12	Private	Dry	0.0530	Food Corporation of India
				96/2 Pt	96/13	Private	Garden	0.0140	Mukundan, P Shailaja, "Shreyas", Kokkodan Valsan, Vaishaprath Raghavan, Chandhu (died), A Narayani & Others, Kokkodan House
				96/8 Pt	96/14	Private	Dry	0.0020	Parvathi, Janaki Nivas, Prema Kumari, "Preetham", Janardhanan M.P., "Swathik",
				96/9B Pt	96/15	Private	Dry	0.0074	Musthafa A.K. "Alnoor", Vasudevan, "Karthik", Shahanas, "Blossoms", Usha Kuruvakandy, Reghootham, Paramookoth, Secretary, Muzhappilangad Grama Panchayath
				121	121	Govt	Puramboke	0.4654	Govt. Land
				164/4 Pt	164/6	Private	Garden	0.0023	Punnathunkandy Gangadharan, Kaiprath Sathiyavathy, T.C. Ashraf, "Paradise", Sherly N.V., "Sreeragh", Andhrapally Sawithry,
				236/18 Pt	236/7	Private	Partly Wet & Partly Garden	0.0230	Murukesh K, Kuniyil House, K.V. Lathika, Parappiyan House, B. Mukundan, S.M. Nivas, P.Lathika, Parapayan House, Munnileprath Mayyil Muhammed Haji
				165/11	165/17	Private	Garden	0.0021	Karuvakandy Karunakaran
				165/10A Pt	165/15	Private	Garden	0.0054	Pusparajan, Ramnivas, Rajan
					165/16	Private	Garden	0.0077	A.K.Raseena 'Six R', Rajeesh,

[F. No. NHA/LA-2011/Notif/3D/KRL/KOZ]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.